Magma Fincorp Limited Regd. Office

Regd. Office Development House 24 Park Street, Kolkata 700 016 Tel: 91 7596067686 91 33 44017350

Fax : 91 33 44017428 CIN : L51504WB1978PLC031813 Web: www.magma.co.in

Symbol: MAGMA

Company Code: 524000



Dated: 30 April 2021

The Manager,
Listing Department,
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza,
Bandra- Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai-400051

BSE Limited

Corporate Relationship Department 25th floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street Mumbai-400001

Sub: Recommendation of the committee of Independent Directors ("IDC") of Magma Fincorp limited ("Target Company") on the Open Offer made by Rising Sun Holdings Private Limited ("Acquirer") Together with Mr. Sanjay Chamria and Mr. Mayank Poddar, in their capacity as the Persons acting in concert with the Acquirer (collectively "PACs") to the Public Shareholder of the Target Company, Under Regulation 26(7) of SEBI (Substantial Acquisition of shares and takeovers) Regulations, 2011 ("SEBI (SAST) Regulations")

Dear Sir / Madam,

We wish to inform you that the recommendation of the IDC pertaining to the aforesaid open offer was published in the Financial Express (English-All editions), Jansatta (Hindi-All editions), Aajkal (Bengali-Kolkata edition) and Navshakti (Marathi-Mumbai edition) on April 30, 2021 in accordance with Regulation 26 (7) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulation , 2011 ("SEBI (SAST) Regulations").

As required under the SEBI (SAST) Regulations, we hereby enclose a copy of the aforesaid publication.

This is for your information and record.

Thanking You,
Yours Faithfully,
For Magma Fincorp Limited

Shabhum Zaman Company Secretary

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM FRIDAY, APRIL 30, 2021

BOI AXA Mutual Fund

(Investment Manager: BOI AXA Investment Managers Private Limited)

Registered Office: B/204, Tower 1, Peninsula Corporate Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai 400013 CIN: U65900MH2007FTC173079



Mutual Fund

NOTICE

Disclosure with respect to Half Yearly Financial Results of Scheme(s) of BOI AXA Mutual Fund (The Fund):

Notice is hereby given to the Investors/Unit holders of all the Schemes(s) of BOI AXA Mutual Fund (the Fund) that in accordance with Regulation 59 of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 and SEBI circulars issued in this regard from time to time, the half yearly unaudited financial results of all the Scheme(s) of the fund for the half year ended March 31, 2021, have been hosted on the website of BOI AXA Investment Managers Private Limited at www.boiaxamf.in. Investors/Unit holders can access the aforesaid results using the following link: https://www.boiaxamf.in/regulatory-reports/financials

> For BOI AXA Investment Managers Private Limited (Investment Manager for BOI AXA Mutual Fund)

Place: Mumbai Date: April 29, 2021

Authorised Signatory

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

HITACHI

ABB POWER PRODUCTS AND SYSTEMS INDIA LIMITED

CIN: L31904KA2019PLC121597

Phone no:+91 80 2204 1800

Registered Office: 8th Floor, Brigade Opus, 70/401, Kodigehalli Main Road, Bengaluru-560 092 Website: https://www.hitachiabb-powergrids.com/in/en; Email: in-investorhelpdesk_appsil@hitachi-powergrids.com

NOTICE OF THE 2ND ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

(A) ANNUAL GENERAL MEETING AND BOOK CLOSURE:

Notice is hereby given that the 2nd Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company will be held on Thursday, May 27, 2021 at 11.00 A.M. (IST) through video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM"), to transact the businesses set forth in the AGM notice dated February 26, 2021. Pursuant to Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and Securities and Exchange Board of India, which allow the Companies to hold AGM through VC/ OAVM, the 2nd AGM of the Company is being held through VC/OAVM.

In terms of the said Circulars, the AGM Notice along with the Audited Balance Sheet as at December 31, 2020, Audited Profit & Loss, Cash Flow Statement for the financial year ended December 31, 2020, together with the Reports of the Directors and Auditors thereon will be sent to the Members whose E-mail IDs are registered with the Company/Depository Participant(s)/ KFin Technologies Private Limited, (KFintech), the Registrar and Share Transfer Agents of the Company. The AGM notice and Annual Report will be uploaded on the Company's website at https://www.hitachiabb-powergrids. com/in/en/about-us/investor-relations/financial-results--reports-and-presentations. The AGM Notice and Annual Report will also be available on the websites of the Stock Exchanges where the shares of the Company have been listed viz., BSE Limited - www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited - www.nseindia.com and on website of National Securities Depository Limited (NSDL). Members including Members who have not registered their E-mail addresses with Company/Depository Participant(s), can download the AGM Notice and Annual Report from any of the said websites.

The Members whose E-mail address is not registered with the KFintech/ Depository Participant(s) (DP), are required to follow following steps to receive AGM Notice. Annual Report and e-voting user ID and password by E-mail from NSDL:

i) Registration of e-mail address permanently with Company/DP: Members are requested to register the same with their concerned DPs, in respect of electronic holding and with KFintech (Registrars and Share Transfer Agents (RTA)) in respect of physical holding, by writing to them at einward.ris@kfintech.com. Further, those Members who have already registered their e-mail addresses are requested to keep their e-mail addresses validated/ updated with their DPs/KFintech to enable servicing of notices/documents/Annual Reports and other communications electronically to their e-mail address in future.

ii) Alternatively, Members may:

- (1) In case shares are held in physical mode please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) by email to in-investorhelpdesk appsil@hitachi-powergrids.com
- (2) In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) to in-investorhelpdesk appsil@hitachi-powergrids.com
- (3) Alternatively member may send an e-mail request to evoting@nsdl.co.in for obtaining User ID and Password by providing the details mentioned in Point (1) or (2) as the case may be.

For detailed procedure for registering the E-mail address and for receipt of e-voting user ID and password and the manner of voting remotely or e-voting during the AGM, the Members are requested to refer the AGM Notice available on the aforesaid websites. The Members are requested to refer the AGM notice for instructions for attending the AGM through VC / OAVM and viewing WEBCAST of AGM. The AGM related documents will be available for electronic inspection by the Members of the Company during office hours on any working day of the Company upto the date of AGM.

Notice is also given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations) that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will be closed from May 21, 2021 to May 27, 2021 (both days inclusive) to determine the eligible shareholders who would be entitled for the payment of dividend for the year ended December 31, 2020, if declared, at the 2nd AGM.

(B) REMOTE E-VOTING

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and the provisions of Regulation 44 of the Listing Regulations, the Members are provided with the facility to cast their vote electronically, through the e-voting services provided by National Securities Depository Limited (NSDL) on all resolutions set forth in the AGM notice. The businesses to be transacted through voting by electronic means are given below:

As Ordinary Business: (1) Adoption of Financial Statements and Reports of the Board of Directors and the Auditors thereon for the year ended December 31, 2020 (2) Declaration of dividend

As Special business: (3) – Appointment of Mr. Achim Michael Braun (DIN: 08596097) as a Director (4) Appointment of Mr. Ismo Antero Haka (DIN: 08598862) as a Director (5) Approval of remuneration to the Cost Auditor of the Company for Financial period from January 01, 2021 to March 31, 2022 (6) To borrow money in excess of prescribed limit as per Companies Act 2013.

SI No	Details / Activity	Particulars
1.	Date and time of commencement and end of remote e-voting	Commencement: 9.00 a.m. IST on Saturday, May 22, 2021 Conclusion: 5.00 p.m. IST on Wednesday, May 26, 2021
2.	Cut-off date	Wednesday, May 19, 2021

The remote e-voting module shall be disabled for voting after 5.00 pm on Wednesday, May 26, 2021. Once the vote on a resolution is cast by the Member, he / she / it shall not be allowed to change it subsequently. The Members who have not cast their vote electronically, and are otherwise not barred from doing so, can exercise their voting rights through the e-voting system during the AGM. The Company will make necessary arrangements for e-voting during the AGM. Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the meeting may also attend the AGM but they are not entitled to cast their vote again during the AGM. Members whose name is recorded in the Register of Members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. Wednesday, May 19, 2021, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting / e-voting during the AGM as the case maybe.

Members who hold shares in dematerialized form and want to provide/change/ correct their bank account details should send the same immediately to their concerned Depository Participant. Members are also requested to give the MICR Code of their bank to their Depository Participant. While making the payment of Dividend, the RTA is obliged to use only the data provided by the Depositories, in case of such dematerialized shares. Members who are holding shares in physical form are advised to submit the particulars of their bank account to the KFintech. Please refer AGM notice for detailed instructions.

Members who would like to express their views/ask questions as a speaker at the Meeting may pre-register themselves by sending a request from their registered e-mail address mentioning their names, DP ID and Client ID/folio number, PAN and mobile number at in-investorhelpdesk appsil@hitachi-powergrids.com between Thursday, May 20, 2021 (9.00 a.m. IST) and Monday, 24, 2021 (5.00 p.m. IST). Only those Members who have preregistered themselves as a speaker will be allowed to express their views/ask questions during the AGM. The Company reserves the right to restrict the number of speakers depending on the availability of time for the AGM.

Webcast facility:

Members may kindly note that the Company will provide webcast of the proceedings of AGM. Members who are entitled to participate in the AGM, can view the proceedings of AGM by logging into website of NSDL website at https://www. evoting.nsdl.com using their e-voting login credentials.

For any guery / clarification / grievance connected with VC Meeting, remote e-voting and Members who acquired shares of the Company after the date of dispatch of AGM notice and hold shares as of the cut-off date i.e. Wednesday, May 19, 2021 may obtain the User ID and Password by following aforementioned steps or may write an E-mail to the Company at in-investorhelpdesk_appsil@hitachi-powergrids.com or to NSDL at evoting@nsdl.co.in or reach out to NSDL on 1800 1020 990 /1800 224 430.

By Order of the Board of Directors For ABB Power Products and Systems India Limited

Poovanna Ammatanda General Counsel & Company Secretary FCS-4741 Bengaluru, April 29, 2021

financialexp.epapr.in

L&T Finance Holdings Limited Registered Office

Brindavan, Plot No. 177, C.S.T Road **T** +91 22 6212 5000 **F** +91 22 6212 5553 Kalina, Santacruz (East) Mumbai 400 098, Maharashtra, India **E** igrc@ltfs.com CIN: L67120MH2008PLC181833 www.ltfs.com



WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

EXTRACT OF CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED **MARCH 31, 2021**

(₹ in Crore)

Particulars	Quarter ended March 31, 2021 (Unaudited)	Year ended March 31, 2021 (Audited)	Quarter ended March 31, 2020 (Unaudited)
1 Total income from operations	3,587.18	14,080.10	3,425.68
2 Net profit for the period/year (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	718.24	1,269.59	455.94
Net profit for the period/year before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	718.24	1,495.20	455.94
4 Net profit for the period/year after tax (after exceptional and/or extraordinary items) attributable to owners of the Company	266.85	970.94	386.15
5 Total comprehensive income for the period/year attributable to owners of the Company	243.66	1,013.87	270.03
5 Paid up equity share capital (face value of ₹ 10 each)	2,469.45	2,469.45	2,004.83
7 Other equity		16,303.75	
B Earnings per share (*not annualised)			
(a) Basic (₹)	* 1.18	4.49	* 1.82
(b) Diluted (₹)	* 1.17	4.47	* 1.81

1. The Company reports quarterly financial results of the group on a consolidated basis, pursuant to Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") as amended read with circular dated July 5, 2016. The standalone financial results are available on the website of the Company at www.ltfs.com, the website of BSE Limited ("BSE") at www.bseindia.com and on the website of National Stock Exchange of India Limited ("NSE") at www.nseindia.com. The specified items of the standalone financial results of the Company for the guarter and year ended March 31, 2021 and guarter ended March 31, 2020 are given below.

(₹ in Crore)

	Quarter ended	Year ended	Quarter ended
Particulars	March 31, 2021 (Unaudited)	March 31, 2021 (Audited)	March 31, 2020 (Unaudited)
Total income	125.12	191.42	412.75
Profit before tax	79.08	188.79	341.69
Profit after tax	58.87	116.05	339.81
Total comprehensive income	58.85	116.16	339.79

- 2. The above is an extract of the detailed format of audited consolidated financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the Listing Regulations.
- 3. These consolidated financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles of Indian Accounting Standard ("Ind AS") prescribed under section 133 of the Companies Act 2013 (the "Act") read with relevant rules issued thereunder and the other accounting principles generally accepted in India.
- 4. These consolidated financials results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on April 29, 2021. The Joint Statutory Auditors of the Company have carried out audit of the aforesaid results.

For and on behalf of the Board of Directors **L&T Finance Holdings Limited**

Place: Mumbai **Date:** April 29, 2021

1. Date

Dinanath Dubhashi Managing Director & Chief Executive Officer (DIN: 03545900)

MAGMA FINCORP LIMITED

Registered Office: Development House, 24, Park Street, Kolkata - 700016 Tel. No.: +91 (033) 444017350; Website: www.magma.co.in; CIN: L51504WB1978PLC031813

Recommendations of the Committee of Independent Directors ("IDC") of Magma Fincorp Limited ("Target Company") on the Open Offer (as defined below) made by Rising Sun Holdings Private Limited ("Acquirer") together with Mr Sanjay Chamria ("PAC 1") and Mr Mayank Poddar ("PAC 2"), in their capacity as the persons acting in concert with the Acquirer (collectively, "PACs") to the public shareholders of the Target Company, under Regulation 26(7) of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 ("SEBI (SAST) Regulations")

April 29, 2021

1.	Date	April 29, 2021
2.	Name of the Target Company (TC)	MAGMA FINCORP LIMITED
3.	Details of the Offer pertaining to TC	Open offer for the acquisition of up to 19,88,32,105 fully paid-up equity shares having a face value of INR 2/- each ("Equity Shares"), representing 26% of the Expanded Voting Share Capital (as defined in the Letter of Offer dated April 28, 2021) of the Target Company, from all public shareholders of Target Company, made by the Acquirer and the PACs ("Offer" or "Open offer"), at a price of INR 70.27/- per Equity Share, being the offer price of INR 70/- per Equity Share ("Offer Price") together with interest of INR 0.27/- per Equity Share, in terms of Regulation 3(1) and 4 of SEBI (SAST) Regulations. The Public Announcement dated February 10, 2021 (the "PA"), Detailed Public Statement published on February 17, 2021 (the "DPS"), Letter of Offer dated April 28, 2021 (the "LoF") have been issued by Axis Capital Limited, the Manager to the Open Offer, on behalf of the Acquirer and the PACs.
4.	Name(s) of the acquirer and PAC with the acquirer	Acquirer - Rising Sun Holdings Private Limited PAC 1 - Mr Sanjay Chamria PAC 2 - Mr Mayank Poddar
5.	Name of the Manager to the offer	Axis Capital Limited 1st Floor, Axis House, C-2 Wadia International Centre, P. B. Marg, Worli, Mumbai - 400 025, Maharashtra, India Tel: +91 22 4325 2183; Fax: +91 22 4325 3000 Email: magma.openoffer@axiscap.in Contact Person: Mr Ankit Bhatia SEBI Registration No.: INM000012029
6.	Members of the Committee of Independent Directors (IDC) (Please indicate the chairperson of the Committee separately)	Mrs. Vijayalakshmi R Iyer - Chairperson Mr. Sunil Chandiramani Mr. Bontha Prasada Rao
7.	IDC Member's relationship with the TC (Director, Equity shares owned, any other contract / relationship), if any	All the IDC Members are Independent and Non-Executive Directors of the TC and none of the IDC members hold any equity shares in the TC.
8.	Trading in the Equity shares/other securities of the TC by IDCMembers	None of the members of IDC have traded in any of the equity shares/other securities of the TC during the period of 12 months prior to the PA dated February 10, 2021 and till the date of this recommendation.
9.	IDC Member's relationship with the acquirer and PACs (Director, Equity shares owned, any other contract / relationship), if any.	None of the Members of IDC: (a) are directors of the Acquirer; (b) hold any equity shares or other securities of the Acquirer; or (c) have any contracts/relationship with the Acquirer or the PACs.
10.	Trading in the Equity shares/other securities of the Acquirer by IDC Members	None of the IDC members have traded in equity shares/other securities of the Acquirer during the period of 12 months prior to the PA dated February 10, 2021 and till the date of this recommendation.
11.	Recommendation on the Open offer, as to whether the offer is fair and reasonable	The IDC is of the opinion that the price of INR 70.27/- per Equity Share, being the Offer Price of INR 70/- per Equity Share together with interest of INR 0.27/- per Equity Share, offered by the Acquirer is in accordance with the regulations prescribed under the SEBI (SAST) Regulations and accordingly, the open offer is fair and reasonable.
12.	Summary of reasons for recommendation (IDC may also invite attention to any other place, e.g. company's website, where its detailed recommendations along with written advice of the independent adviser, if any can be seen by the shareholder)	The IDC has perused the PA, DPS and LoF issued on behalf of the Acquirer and the PACs. The IDC further noted that public shareholders whose Equity Shares are accepted in the Open Offer will be paid INR 70.27/- per Equity Share, being the Offer Price of INR 70/- per Equity Share together with interest of INR 0.27/- per Equity Share. The recommendation of IDC, as mentioned in para 11 above, is based on the fact that the Offer Price, viz., INR 70/- is computed as per Regulation 8 (2) of the SEBI (SAST) Regulations. The IDC noted that M/s. Patki & Soman, Chartered Accountants (FRN: 107830W) have duly certified the prices computed as per Regulation 8 (2) of SEBI (SAST) Regulations, 2011. Considering all relevant factors, and based on the review of the PA, DPS, and LoF, the IDC is of the opinion that the price of INR 70.27/- per Equity Share, being the Offer Price of INR 70/- per Equity Share together with interest of INR 0.27/- per Equity Share, as offered by the Acquirer is (a) in accordance with the regulations prescribed under the SEBI (SAST) Regulations; and (b) accordingly, the Open Offer is fair and reasonable.
		The shareholders of the Target Company are advised to independently evaluate the Open

To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement is, in all material respect, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the information required to be disclosed by the Target Company under the SEBI (SAST) Regulations.

respectively, which is higher than the Offer Price.

The shareholders of the Target Company are advised to independently evaluate the Open

offer and take an informed decision about tendering the Equity Shares held by them in the

The members of the IDC would like to draw attention to the closing market price of the Equity Shares on National Stock Exchange of India Limited ("NSE") and BSE Limited ("BSE") as

on April 28, 2021, being INR 118.70 per Equity Share and INR 118.65 per Equity Share,

PRESSMAN

For and on behalf of Committee of Independent Directors of Magma Fincorp Limited

Open offer.

Vijavalakshmi R Iver

Chairperson of Committee of Independent Directors DIN: 05242960

13. Details of Independent Advisors, if any.

14. Any other matter(s) to be highlighted

Place : Mumbai

Date : 29 April, 2021



The Indian Express



Date: 30th April 2021

To,

The Manager,
Pressman Advertising Ltd

Dear Sir / Madam,

Subject: Advertisement of Magma Fincorp Ltd - IDC Recommendations

This is to confirm that the advertisement of Magma Fincorp Ltd - IDC Recommendations b/w advertisement Size - 16 w * 28 h has been published in Financial Express (English) - All + Financial Express (Gujarati) - Ahmedabad + Jansatta (All editions) on 30th April 2021 (Friday).

For your reference:

The Financial Express: (English editions) Mumbai, Pune, Ahmedabad, Delhi, Chandigarh, Kolkata, Bangalore, Chennai, Hyderabad, Kochi and Lucknow

The Financial Express: (Ahmedabad- Gujrati Edition)

Jansatta: (Hindi editions) Delhi, Chandigarh, Kolkata, Lucknow

Thanking you,

Sincerely,

For The Indian Express Limited,

Akshata Salunke

Assistant Manager - R.E.D The Indian Express Limited Express towers, Nariman Point, Mumbai-400021

Mobile: 9664156283

Email id: akshata.salunke@expressindia.com

हस्ता./-

Auction Date

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 29 अप्रैल।

केंद्र ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार अधिनियम में संशोधन से राष्ट्रीय राजधानी में निर्वाचित सरकार के संवैधानिक व विधिक दायित्वों में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा, बल्कि यह बेहतर शासन सुनिश्चित करेगा।

गृह मंत्रालय ने एक बयान में यह भी कहा कि संशोधन निर्वाचित सरकार और उपराज्यपाल (एलजी) के उत्तरदायित्वों को परिभाषित करेगा और विधायिका व कार्यपालिका के बीच 'एक सौहार्दपूर्ण संबंध बनाएगा'।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार (जीएनसीटीडी) संशोधन अधिनियम, 2021 लोकसभा व राज्यसभा द्वारा क्रमशः 22 और 24 मार्च को पारित किए जाने तथा 28 मार्च को भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किये जाने के बाद मंगलवार से प्रभावी हो गया। अधिनियम की धारा 21, 24, 33 और 44 को संशोधित किया गया है।

बयान में कहा गया कि जीएनसीटीडी अधिनियम, 1991 में संशोधन किसी भी रूप में निर्वाचित सरकार के भारत के संविधान की राज्य और समवर्ती सृचियों में हस्तांतरित विषयों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा आदि सहित अन्य विषयों पर जरूरी कार्यवाही करने के संवैधानिक व विधिक उत्तरदायित्वीं में कोई बदलाव नहीं करता है। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस

संशोधन का उद्देश्य राजधानी की जरूरतों के मुताबिक इसे और प्रासंगिक बनाना तथा निर्वाचित सरकार तथा उपराज्यपाल उत्तरदायित्वों को परिभाषित करना है। बयान में कहा गया, 'संशोधन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बेहतर प्रशासन सुनिश्चित करेगा तथा दिल्ली के आम लोगों के लिए बनाई गई योजनाओं व कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन में उपयोगी होगा।' यह संशोधन मौजूदा कानूनी तथा संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक है और सुप्रीम कोर्ट के चार जुलाई 2018 और 14 फरवरी 2019 के फैसलों के अनुरूप भी।

नए कानून के मुताबिक दिल्ली में 'सरकार' का मतलब 'उपराज्यपाल' है तथा दिल्ली की निर्वाचित सरकार को कार्यकारी फैसले लेने के लिए उ पराज्यपाल से राय लेनी होगी।

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एम्स से छुट्टी मिली

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 29 अप्रैल।

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को, कोरोना विषाणु संक्रमण से उबरने के बाद गुरुवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) से छुट्टी मिल गई। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी दी। 19 अप्रैल को 88 साल के सिंह को हल्का बुखार होने के बाद जांच में कोरोना विषाण से संक्रमित होने का पता चला था। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

पूर्व प्रधानमंत्री ने चार मार्च और तीन अप्रैल को कोरोना के टीकों की दो खराक ली थी। पिछले साल एक नई दवा के कारण रिएक्शन और बुखार होने के बाद मनमोहन सिंह को एम्स में भर्ती कराया गया था। कई दिनों के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली थी। मनमोहन सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और फिलहाल राजस्थान से राज्यसभा सदस्य हैं। वो 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। साल 2009 में एम्स में उनकी बाईपास सर्जरी हुई थी।

टांसकोर्प इन्टरनेशनल लिमिटेड CIN: L519090L1994PLC235697 पंजिकृत कार्यालय :- प्लॉट नं ३, एच. ए. एक पॉकंट, संकटर 18 ए. हारका, फंज-11, नई दिल्ली-10075,

वेबसाइट : www.transcorpint.com, e-mail: grievance@transcorpint.com, Phone: 91-11-30418901-05, Fax: 91-11-30418906 सचना सेबी (सचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं

विनिमय, 2015 के अनुसरण में एतदवारा य सचित किया जाता है कि कम्पनी के संचालक मण्डल की आगामी सभा दिनांक 31.03.2021 क समाप्त हुई तिमाही व वित्तीय वर्ष के अंकेक्षित खातों (एकल व समेकित) के अनुमोदन एव अन्य कार्यों को करने हेतु दिनांक 11.05.2021 को आयोजित की जाएगी। नोटिस कम्पनी वेयसाईट www.transcorpint.com निवेशक संचार अनुभाग www.bseindia.com के कॉपोरेंट घोषणा अनुभाग पर भी उपलब्ध है।

दिलीप कुमार मोरवाल समूह कम्पनी सचिव दिनांक : 29.04.2021 स्थान : जयपुर

www.readwhere.com

कते ट्रांसकोर्प इन्टरनेशनल लिमिटेड

केरल : कांग्रेस उम्मीदवार का दिल का दौरा पड़ने से निधन

मलप्पुरम (केरल), २९ अप्रैल (भाषा)।

से विपक्षी यूडीएफ के उम्मीदवार वीवी प्रकाश प्रकाश (56) मलप्पुरम जिला कांग्रेस कमेटी का गुरुवार सुबह दिल का दौरा पड़ने से निधन केरल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व निलांबुर हो गया। पार्टी सूत्रों ने यह जानकारी दी।

(डीसीसी) के अध्यक्ष भी थे। कुछ महीने पहले ही उनकी एंजियोप्लास्टी हुई थी।

एस आर एफ् लिमिटेड

सीआईएनः L18101DL1970PLC005197 पंजीकृत कार्यालयः द गैलेरिया, डीएलएफ मयुर विहार, यूनिट संख्या 236 व 237, द्वितीय तल, मयूर प्लेस, मयुर विहार फेज 1 एक्सटेंशन, दिल्ली-110091 कॉर्पोरेट कार्यालयः ब्लॉक सी, सेक्टर 45, गुरुग्राम-122003 फोनः +91-124-4354400, फैक्सः +91-124-4354500 ई-मेलः cs@srf.com; वेबसाइटः www.srf.com

भारतीय प्रतिभृति विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 की नियमावली 29 के साथ पठित नियमावली 47 एवं लाग होने योग्य अन्य प्रावधानों के अनुपालन में एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक बुधवार, 5 मई 2021 की, अन्य बातों के अतिरिक्त, 31 मार्च 2021 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के अंकेक्षित वित्तीय परिणामों के अनुमोदन हेतु आयोजित की जाएगी।

सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.srf.com एवं एवं स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों जहाँ कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, अर्थात् नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड www.nseindia.com, एवं बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है कृते एस आर एफ लिमिटेड

gold items/articles as per below schedule

Loan Account no Name of the borrower

20660000177320 | SANJEEV KAKKAR

20660000348820 PARVEEN SHARMA

20660000361594 | SANJEEV KUMAR

20660000386417 UPKAR SINGH

19660000387231 BACHI SINGH

19660000468369 MUJAHID KHAN

20660000016445 AAKASH SINGH

19660000378949 ASHISH KUMAR

19660000429144 | SWEET KUMAR

20660000027154 | SAHDEV MALHAN

20660000076920 | DALIP SINGH

20660000195506 AAKASH SINGH

JASDEEP SINGH

CHAWLA

19660000260290 NAZIM

20660000149794 | ANKUSH

20660000183429

20660000116937 MONIKA

रजत लखनपाल वीपी (कॉर्पोरेट अनुपालन) स्थान : ग्रुगाम तिथि : 29 अप्रैल. 2021 एवं कम्पनी सचिव

LOAN AGAINST GOLD - AUCTION NOTICE ON "AS IS WHERE IS" BASIS

The below mentioned borrower/s have been issued notices to pay their

outstanding amounts towards the loan against gold facilities availed from

Fincare Small Finance Bank Ltd ("Bank"). Since the borrower/s has/have failed

to repay his/their dues, we are constrained to conduct an auction of pledged

Fincare Opp. Mayor's Bungalow, Law Garden Road, Mithakhali,

Small Finance Bank | Ahmedabad - 380006, Gujarat. www.fincarebank.com

Registered Office: 301-306, 3rd Floor, ABHIJEET -V,

Auction Venue

Ring Road, Near Madhuban Chowk,

Road, Malaviya Nagar, New Delhi-

Market, Rajouri Garden, New Delhi-

B. Dwarka, New Delhi-110075

Pitampura, Delhi-110034

Ground Floor, #Fd4, Pitampura Outer | 05-05-2021

Ground Floor, A-86, Main Shivalik | 05-05-2021

Ground Floor, J2/15B, Bk Dutt | 05-05-2021

Ground Floor, Plot No.58, Sector-12 | 05-05-2021

April 29, 2021

जीआरएम ओवरसीज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 128, पहली मंजित, शिवा मार्केट पीतमपुरा उत्तरी दिल्ली -110034 वेबसाइट: www.grmrice.com | ईमेल आईडी: grmrice1@gmail.com दूरभाष नंबर: 011-47330330 | फेक्स नंबर: 011- (0180 - 2653673)

भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 29(1)(ए) के साथ पठित विनियमन 47 के अनुपालन में एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मण्डल की बैठक बुधवार, 12 मई, 2021 को 12.30 बजे अप. में आयोजित की जाएगी जिसमें निम्न व्यवसाय पर अन्य विषयों के अलावे चर्चा की जाएगी। 1. 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के लिए कम्पनी के अंकेक्षित वित्तीय परिणामीं

2. बोनस शेयरों के निर्गम पर विचार तथा अनुमोदन

3. शेयरधारकों की स्वीकृति प्राप्त करने तथा पोस्टल बैलॅट सूचना से संबंधित आयोजन के कैलैण्डर के अनुमोदन के लिये कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 तथा लागू होने वाले अन्य प्रावधानों, यदि कोई हो के अनुपालन में पोस्टल बैलॅट सूचना का अनुमोदन।

पुनः ट्रेडिंग विंडो बन्द रहने की हमारी सूचना तिथि 31 मार्च, 2021 की अनवरतता में तथा सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग निषेध) विनियमन, 2015 के प्रावधानों के अनुपालन में कम्पनी द्वारा निर्मित इन्सायडरों द्वारा ट्रेडिंग के विनियमन, निगरानी तथा रिपोर्ट की आचार संहिता के अनुसार कम्पनी की प्रतिभृतियों में कारोबार के लिए ट्रेडिंग विंडो सभी विनिर्दिष्ट व्यक्तियों तथा उनके नजदीकी संबंधियों के लिए बोर्ड की बैठक की पूर्णता के बाद 48 घंटे अर्थात् 14.5.2021 (दोनों दिवस सहित) तक

वेबसाइट http://www.bseindia.com पर भी देखी जा सकती है।

बोर्ड के आदेश से जीआरएम ओवरसीज लिमिटेड के लिए

बलवीर सिंह दिनांक: 29 अप्रैल, 2021 स्थानः नई दिल्ली (कम्पनी सचिव)

Registered Office: 301-306, 3rd Floor, ABHIJEET -V, FINCACE | Opp. Mayor's Bungalow, Law Garden Road, Mithakhali, Small Finance Bank Ahmedabad - 380006, Gujarat, www.fincarebank.com

The below mentioned borrower/s have been issued notices to pay their outstanding amounts towards the loan against gold facilities availed from Fincare Small Finance Bank Ltd ("Bank"). Since the borrower/s has/have failed to repay his/their dues, we are constrained to conduct an auction of pledged gold items/articles as per below schedule.

Loan Account no	Name of the borrower	Auction Venue	Auction Date
19660000379387	SK SADEK ALI	Ground Floor, 1/95, Vinay Khand,	05-05-2021
19660000379917	SHEKHAR SONI	Husadia Road, Near Patrakarpuram	etresconsen.
19660000420250	RUBY ATEEK SIDDIQUEE	Crossing, Gomti Nagar, Lucknow- 226010	
20660000069214	UZMA AHMED	220010	
20660000178699	AMIT KUMAR SINGH		
20660000150161	SUMEET	Ground Floor,4/S-41A/G10,	05-05-2021
20660000214372	RAJESH VERMA	12,13,14, Friends Tower, Sanjay	
20660000330003	KHALID QURESHI	Palace, Agra-282002	
20660000372653	ASHISH NIGAM		
20660000378402	MANOJ KUMAR		
19660000244091	NEETU SINGH	Ground Floor, Plot No.10, Block-b-	05-05-2021
19660000272998	SATYABABUAK	1A, Sector-51, Gautam Budh Nagar,	Access to Committee of the Committee of
20660000068256	RAMAN KUMAR SINGH	Noida -201301	
20660000145101	SURESH KUMAR		
20660000319745	SUMAN MISHRA		
20660000321470	A IIT KUMAR MISHRA		

Note: The auction is subject to certain terms and conditions mentioned in the bid form, which is made available before the commencement of auction

CIN: L74899DL1995PLC064007

(समेकित तथा एकल) पर विचार तथा अनुमोदन।

यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट http://www.grmrice.com तथा साथ ही स्टॉक एक्सचेंज की

LOAN AGAINST GOLD - AUCTION NOTICE ON "AS IS WHERE IS" BASIS

Lana Account on Name of the horseway

rosu acconut no	Name of the borrower	Auction Venue	Auction Date
19660000379387	SK SADEK ALI	Ground Floor, 1/95, Vinay Khand,	05-05-2021
19660000379917	SHEKHAR SONI	Husadia Road, Near Patrakarpuram	Chiescopical I.
19660000420250	RUBY ATEEK SIDDIQUEE	Crossing, Gomti Nagar, Lucknow- 226010	
20660000069214	UZMA AHMED	220010	
20660000178699	AMIT KUMAR SINGH		
20660000150161	SUMEET	Ground Floor,4/S-41A/G10,	05-05-2021
20660000214372	RAJESH VERMA	12,13,14, Friends Tower, Sanjay	
20660000330003	KHALID QURESHI	Palace, Agra-282002	
20660000372653	ASHISH NIGAM		
20660000378402	MANOJ KUMAR		
19660000244091	NEETU SINGH	Ground Floor, Plot No.10, Block-b-	05-05-2021
19660000272998	SATYABABUAK	1A, Sector-51, Gautam Budh Nagar,	AND HOUSE VEHICLE
20660000068256	RAMAN KUMAR SINGH	Noida -201301	
20660000145101	SURESH KUMAR		
20660000319745	SUMAN MISHRA		
20660000321470	AJIT KUMAR MISHRA		

Note: The auction is subject to certain terms and conditions mentioned in the bid form, which is made available before the commencement of auction.

20660000387505 SANJEEV KUMAR MISHRA

MAGMA FINCORP LIMITED

Registered Office: Development House, 24, Park Street, Kolkata - 700016 Tel. No.: +91 (033) 444017350; Website: www.magma.co.in; CIN: L51504WB1978PLC031813

Recommendations of the Committee of Independent Directors ("IDC") of Magma Fincorp Limited ("Target Company") on the Open Offer (as defined below) made by Rising Sun Holdings Private Limited ("Acquirer") together with Mr Sanjay Chamria ("PAC 1") and Mr Mayank Poddar ("PAC 2"), in their capacity as the persons acting in concert with the Acquirer (collectively, "PACs") to the public shareholders of the Target Company, under Regulation 26(7) of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 ("SEBI (SAST) Regulations")

2.	Name of the Target Company (TC)	MAGMA FINCORP LIMITED
3.	Details of the Offer pertaining to TC	Open offer for the acquisition of up to 19,88,32,105 fully paid-up equity shares having a face value of INR 2/- each ("Equity Shares"), representing 26% of the Expanded Voting Share Capital (as defined in the Letter of Offer dated April 28, 2021) of the Target Company, from all public shareholders of Target Company, made by the Acquirer and the PACs ("Offer" of "Open offer"), at a price of INR 70.27/- per Equity Share, being the offer price of INR 70/- per Equity Share ("Offer Price") together with interest of INR 0.27/- per Equity Share, in terms of Regulation 3(1) and 4 of SEBI (SAST) Regulations. The Public Announcement dated February 10, 2021 (the "PA"), Detailed Public Statement published on February 17, 2021 (the "DPS") Letter of Offer dated April 28, 2021 (the "LoF") have been issued by Axis Capital Limited, the Manager to the Open Offer, on behalf of the Acquirer and the PACs.
4.	Name(s) of the acquirer and PAC with the acquirer	Acquirer - Rising Sun Holdings Private Limited PAC 1 - Mr Sanjay Chamria PAC 2 - Mr Mayank Poddar
5.	Name of the Manager to the offer	Axis Capital Limited 1st Floor, Axis House, C-2 Wadia International Centre, P. B. Marg, Worli, Mumbai - 400 025 Maharashtra, India Tel: +91 22 4325 2183; Fax: +91 22 4325 3000 Email: magma.openoffer@axiscap.in Contact Person: Mr Ankit Bhatia SEBI Registration No.: INM000012029
6.	Members of the Committee of Independent Directors (IDC) (Please indicate the chairperson of the Committee separately)	Mrs. Vijayalakshmi R Iyer - Chairperson Mr. Sunil Chandiramani Mr. Bontha Prasada Rao
7.	IDC Member's relationship with the TC (Director, Equity shares owned, any other contract / relationship), if any	All the IDC Members are Independent and Non-Executive Directors of the TC and none of the IDC members hold any equity shares in the TC.
8.	Trading in the Equity shares/other securities of the TC by IDCMembers	None of the members of IDC have traded in any of the equity shares/other securities of the TC during the period of 12 months prior to the PA dated February 10, 2021 and till the date of this recommendation.
9.	IDC Member's relationship with the acquirer and PACs (Director, Equity	None of the Members of IDC:

are directors of the Acquirer; shares owned, any other contract / hold any equity shares or other securities of the Acquirer; or relationship), if any.

(c) have any contracts/relationship with the Acquirer or the PACs

Trading in the Equity shares/other | None of the IDC members have traded in equity shares/other securities of the Acquirer during securities of the Acquirer by IDC | the period of 12 months prior to the PA dated February 10, 2021 and till the date of this

Recommendation on the Open offer, The IDC is of the opinion that the price of INR 70.27/- per Equity Share, being the Offer Price of as to whether the offer is fair and INR 70/- per Equity Share together with interest of INR 0.27/- per Equity Share, offered by the reasonable Acquirer is in accordance with the regulations prescribed under the SEBI (SAST) Regulations and accordingly, the open offer is fair and reasonable. Summary of reasons

for The IDC has perused the PA, DPS and LoF issued on behalf of the Acquirer and the PACs. The IDC further noted that public shareholders whose Equity Shares are accepted in the Open Offer will be paid INR 70.27/- per Equity Share, being the Offer Price of INR 70/- per Equity (IDC may also invite attention to any Share together with interest of INR 0.27/- per Equity Share. other place, e.g. company's website, The recommendation of IDC, as mentioned in para 11 above, is based on the fact that the where its detailed recommendations

Offer Price, viz., INR 70/- is computed as per Regulation 8 (2) of the SEBI (SAST) Regulations. independent adviser, if any can be The IDC noted that M/s. Patki & Soman, Chartered Accountants (FRN: 107830W) have duly certified the prices computed as per Regulation 8 (2) of SEBI (SAST) Regulations, 2011. Considering all relevant factors, and based on the review of the PA, DPS, and LoF, the IDC is of

> the opinion that the price of INR 70.27/- per Equity Share, being the Offer Price of INR 70/- per Equity Share together with interest of INR 0.27/- per Equity Share, as offered by the Acquirer is (a) in accordance with the regulations prescribed under the SEBI (SAST) Regulations; and (b) accordingly, the Open Offer is fair and reasonable. The shareholders of the Target Company are advised to independently evaluate the Open offer and take an informed decision about tendering the Equity Shares held by them in the

The members of the IDC would like to draw attention to the closing market price of the Equity

Shares on National Stock Exchange of India Limited ("NSE") and BSE Limited ("BSE") as

on April 28, 2021, being INR 118.70 per Equity Share and INR 118.65 per Equity Share. respectively, which is higher than the Offer Price. To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement is, in all

material respect, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the information required to be disclosed by the Target Company under the SEBI (SAST) Regulations.

For and on behalf of Committee of Independent Directors of Magma Fincorp Limited

Vijayalakshmi R Iyer

Members

recommendation

seen by the shareholder)

Details of Independent Advisors, if any.

Any other matter(s) to be highlighted

along with written advice of the

Chairperson of Committee of Independent Directors DIN: 05242960 Place: Mumbai

Date : 29 April, 2021

स्थानः दिल्ली एनसीआर तिथि: 30.4.2021

नगर, तिलक नगर, वेस्ट दिल्ली-110018

स्वीकृत ऋण राशिः रु. 9300000/- (रुपये तिडानवे लाख मात्र)

आवास फाइनिसियस लिमिटेड & ∆ayas (पूर्व में ''ए यू हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड'' के नाम से जात) (CIN: L65922RJ2011PLC034297)

पंजीकृत एवं निगमित कार्या.: 201-202, द्वितीय मंजिल, साउछ एंड स्ववायर, मानसरोवर इंडस्ट्रीयल एरिया, जयपुर-302020 सिक्युरिटाईजेशन अधिनियम २००२ की धारा १३ (२) के अन्तर्गत मांग सूचना पत्र कम्पनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निम्न सूची के अनुसार ऋणी का खाता एन.पी.ए. होने के कारण निम्न तालिका के अनुसार ''वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूमिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002'' की धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिन का नोटिस दिया गया था। नोटिस के अनुसार यदि ऋणी / गारण्टर 60 दिवस के अंदर बकाया ऋण राशी जमा नहीं कराते हैं तो ऋण की वसूली बंधक सम्पत्ति को नीलाम करके की जायेगी। डिमाण्ड नोटिस की तामील ना होने के कारण नोटिस की छायाप्रति बंधक सम्पत्ति पर चस्पा की जा चुकी है। अत: आपको यह सूचित किया जाता है कि नोटिस प्रकाशित दिनांक से 60 दिन के अन्दर-अन्दर

निम्न तालिका के अनुसार रुपया तथा भविष्य का ब्याज, यसूली में होने वाला खर्चा जमा कराये अन्यथा एक्ट की धारा 13(4) एवं 14 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्न सुचि के अनुसार साम्यिक बंधक सम्पत्ति का भौतिक कब्जा लेंने एवं इसे नीलामी कर ऋण राशि की वसूली कराने के लिए प्राधिकृत अधिकारी स्वतंत्र होंगे। धारा 13(2) के अन्तर्गत ऋणी का नाम बंधक सम्पत्ति का विवरण नोटिस की दिनांक व राशि श्रीमती मिमो 29 अप्रैल 2021 खसरा नं. 233 एम, ग्राम-सिसीना, मुफ्थाकाम, परगना

खाता सं. LNRRK0211	494	Rs. 235644/-	तह. भगवानपुर, रूरकी, भगवानपुर एसओ हरिद्वार,
LNRRK01819-200135		26 अप्रैल 2021	उत्तराखंड, 247661. क्षेत्रफल 924 वर्ग फीट
स्थान : जयप्र	दिनांक 30.04	.2021	प्राधिकृत अधिकारी आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड

मैरियाडा कॉमिशियल एन्टरप्राइजेज एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : 106 (प्रथम तल), मधुबन टॉवर, ए-1, वी.एस. ब्लॉक, शकरपुर क्रॉसिंग, नई दिल्ली-110092

	(साआइएन	: L05993DL	1982PLC013	138)		
	31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही र	तथा वित्त वर्ष	के स्टैण्डएत	नोन वित्तीय प	रेणामी का वि	वरण
क्रम				स्टण्डएलान पारण	пम	
सं.		समाप्त तिमाही	समाप्त तिमाही	समाप्त तिमाही	समाप्त वर्ष	समाप्त व
		31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020	31.03.2021	31.03.202
		लेखापरीक्षित	(अलेखापरीक्षित)	लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षि
1.	प्रचालनों से कुल आय	3,383,848.00	5,412,543.00	(6,984,194.00)	15,911,474.00	(5,207,854
2.	अवधि हेतु कुल लाभ/(हानि) (कर, अपवादित तथा/अथव असाधारण मदों से पूर्व)	2,631,218.00	4,746,030.00	(7,674,236.00)	13,310,738.00	(7,909,115

दूरभाष : 91-11-4990 1667 वेबसाइट : www.maryadainvestment.in

असाधारण मदों के पश्चात) 2,631,218.00 4,746,030.00 (7,674,236.00) 13,310,738.00 (7,909,115.00) 4. अवधि हेतु कर पश्चात कुल लाभ/(हानि) (अपव (7,682,070.00) 2,456,861.00 4,746,332.00 13,137,287.00 (7,916,572.00) 5. अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु (कर पश्चात) अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) से निर्मित] 2,142,746.00 7,106,292.00 (9,812,502.00) 15,900,406.00 (9,414,682.00) 6. इक्विटी शेयर पूंजी 12,450,000 7. गत के लेखापरीक्षित तुलन पत्र में प्रदर्शित के अनुसार आरक्षि (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों को छोडकर) 62,597,095.00 45,164,382.00 8. आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रत्येक के अंकित मृल्य के) (सत तथा असतत प्रचालनों हेतु) 2. डाइल्युटेड

नोट : उपर्युक्त सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दर्ज तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। तिमाही वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.msei.in तथा साथ ही कम्पनी की वेबसाइट www.maryadainvestment.in पर उपलब्ध है।

कृते मैरियाडा कॉमर्शियल एन्टरप्राइजेज एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड कुलदीप शर्मा

हस्ताक्षर का स्थान : नई दिल्ली तिथि : 29 अप्रैल, 2021 डीआईएन : 06746475

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

नीलम चौक, एनआईटी, फरीदाबाद-121002, मो. (0129- 4887855), ईमेलः cs8224@pnb.co.in नियम 8(1) कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु) जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एंव प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पंजाब नेशनल बैंक

मंडल सस्त्रा केन्द्र, फरीदाबाद,

सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा

13(2) के अंतर्गत मांग सूचना

लाख उन्चास हजार सात सौ चौहत्तर मात्र) के साथ

सम्पूर्ण भूगतान तक लागत एवं चार्जेज के साथ

के साथ 12.3.2021 से लागू आगे का ब्याज।)

17.12.2020 से लागू आगे का ब्याज।

का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदारों को निम्नलिखित दिनांकों को मांग नोटिस जारी किया था, जिसमें मांग नोटिस में लिखित बकाया राशि उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भुगतान करने को कहा गया था। उधारकर्ता उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतदद्वारा उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि

अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित सम्पत्तियों का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 (4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तगर्त **निम्नलिखित दिनांक को ले लिया है।** उधारकर्ताओं को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे निम्न सम्पत्तियों के साथ लेन—देन न करें तथा

सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन—देन **पंजाब नेशनल बैंक** के प्रभार वास्ते बकाया राशि के अधीन होगा। उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेत उपलब्ध समय सीम

की ओर आकर्षित किया जाता है। अचल सम्पत्ति का विवरण

豖.	खाते का नाम	मांग सूचना की तारीख	= xx vi
永. せ.	खात का नाम (कर्जदार)	कब्जा सूचना की तारीख	अचल सम्पत्तियों का विवरण
N.Fin	(solary	बकाया राशि (रू. में)	CONTRACTOR
1	मैसर्स श्री कृष्णा	23-01-2019	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि फ्लैट नं. / प्लॉट नं. / मकान नं. 1
	इंडस्ट्रीज (पार्टनर	28-04-2021	जे-60, एनआईटी फरीदाबाद, जिला फरीदाबाद, हरियाणा-121001 में स्थित, यह
	श्री कैलाश आहूजा और श्रीमती शालू आहूजा	रु. 15,34,790.00 और होने वाला ब्याज	सम्पत्ति श्री गोविंद राम आहूजा पुत्र स्वं. श्री सुंदर लाल आहूजा के नाम पर है।
2	मैसर्स ए के एंड	29-07-2019	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि फ्लैट नं. / प्लॉट नं. / मकान सम्पत्ति
	कंपनी	28-04-2021	खसरा नं. 193(1-0), 100//17/1(0-16), 101//3/1(0-4), 8/2(3-16), 9/1(1-3), 10/1(0-1), 257(1-10),
	(प्रोप. कुलदीप चौधरी)	रु. 25,43,929.96 और होने वाला ब्याज	मौजा सिही, जिला फरीदाबाद जिसे अब सम्पत्ति नं. 1945 / 1657ए के नाम से जानते है, श्याम कॉलोनी, सैक्टर—3 के ब्रिज के पास, बल्लभगढ़, तहसील — बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा में स्थित, यह सम्पत्ति श्री कुलदीप चौधरी पुत्र श्री मुख्तियार सिंह के नाम पर है।
3	मैसर्स एडवेंट	19-01-2019	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि फ्लैट नं. / प्लॉट नं. / मकान नं.
	कॉनक्रिटो विजन	28-04-2021	एफसीए-सी - 46 और 47, सम्पत्ति नं. 68 / 59, गली नं. 2, ब्लॉक सी, भाटिया
	(पार्टनर— मंधीर मान और जसबीर सिंह)	रु. 21,81,642.62 और होने वाला ब्याज	कॉलोनी, (उत्तरी) मिल्क प्लांट रोड, बल्लभगढ़, तहसील बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद, हरियाणा—121004 में स्थित, यह सम्पत्ति श्री अजय पाल सिंह पुत्र श्री मुख्तियार सिंह और श्री जसबीर सिंह पुत्र श्री मुख्तियार सिंह के नाम पर है।
~	A CONTRACTOR STATE		L

प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक दिनांक : 28-04-2021, स्थान : फरीदाबाद

फीनिक्स एआरसी प्राईवेट लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः दानी कॉपोरेट पार्क, 5वां तल, 158 सी.एस.टी. रोड, कलीना, शांताक्रुज (ई), मुम्बई- 400098

आप नीचे वर्णित ऋणधारकों तथा सह-ऋणधारकों ने अपनी अचल सम्पत्तियों (प्रतिभृतियों) को गिरवी रखकर बैंक/वित्तीय संस्थान से ऋण (णों) की सुविधा (एं) प्राप की हैं। आपकी चुक के उपरांत आपके ऋणों को गैर-प्रचालन परिसम्पत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। डीड ऑफ एसाइन्मेन्ट तिथि के माध्यम से नीचे वर्णि खाताओं को उसके पुनर्भुगतान के लिए अचल सम्पत्तियों के संदर्भ में निर्मित अधोलिखित प्रतिभृति हित के साथ उक्त ऋण प्राप्त करने के लिए आपके द्वारा निष्पादित दस्तावेजों के अनुसार उसका अधिकार, टाईटल, हित, लाभ, आप से वसूल की जाने वाली बकायों को फीनिक्स एआरसी प्रा.लि. (नीचे वर्णित संबंधित ट्रस्ट के ट्रस्टी की हैसियत से कार्यरत) के पक्ष में सौंप दिया गया है। उक्त असाइन्मेन्ट के अनुसार तथा बकाये राशि को वसूली के लिए ने वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम (अधिनियम), 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना जारी की जिसके विषय वस्तु को प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(2) के अनुसार तथा आपके लिए वैकल्पिक सेवा के द्वारा यहां नीचे प्रकाशित किया जा रहा है। ऋणधारकों, सह-ऋणधारकों, गिरवी सम्पत्तियों, बकाया राशि, धारा 13(2) के अंतर्गत भेजी गई मांग सचना तथा उसके अंतर्गत मांग की गई राशि का विवरण इर

- 1	l ''''	Sittle tilly steel tillet		X
	2	9		5. बकाया देयता
	1.	जसपाल सिंह, पुत्र श्री तिरीत सिंह एवं श्रीमती देव कौर, पत्नी श्रं जसपाल सिंह, दोनों: सम्पत्ति सं. 211, नया नम्बर 34/1, जीएफ, गली नं. 22, संत गढ़, तिलक नगर, नई दिल्ली-110018, साथ ही दोनों: प्लॉट नं. 211, नया नं. 34/1, संतगढ़, तिलक नगर, नई दिल्ली-नई दिल्ली-110018 ऋण खाता संख्याः PR00379581 स्वीकृत ऋण राशिः रु. 7,50,000/- (रुपये सात लाख पचास हजार मात्र)	ग्राम केशोपुर, दिल्ली राज्य, संतगढ़, के नाम से विदित कॉलोनी, तिलक नगर, नई दिल्ली–110018 के क्षेत्र में स्थित मुस्ततिल नं. 15, किल्ला नं. 3 में सम्पत्ति सं. 211, नया नं डब्ल्यूजेड–34/1, एरिया माप 25 वर्ग यार्ड्स के निर्मित पोर्शन का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दीः पूर्वः 15 फीट	(केएफएसएल) 2. 28.9.2018 3. फीनिक्स ट्रस्ट एफ वाई 19-10 4. 03.03.2021 5. 3.3.2021 को बकाया तथा देय रु. 1300143/- (रुपये तेरह लाख एक सौ तैंतालिस मात्र) तथा
	2.	श्री मनोज अग्रवाल, पुत्र स्व. ओम प्रकाश अग्रवाल एवं श्रीमर्त सिम्मी अग्रवाल, पत्नी श्री मनोज अग्रवाल, दोनों: फ्लैट नं. 2बी, पॉकेट-डी, एसएफएस फ्लैट्स, मयूर विहार फेज-III, दिल्ली- 110096, साथ ही दोनों: शॉप नं. एजी-086, प्लॉट नं. 1-सी, सेक्टर नॉलेज पार्क-1, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुध नगर, उत्तर प्रदेश- 201301, साथ ही: बी-1/24, न्यू कोंडली रोड, मयूर विहार फेज- III, दिल्ली-110096, साथ ही: 48ए, पॉकेट डी, एसएफएस् फ्लैट्स, मयूर विहार, फेज-III, दिल्ली-110096 ऋण खाता संख्या: PR00249008 स्वीकृत ऋण राशि: रु. 19,00,000/- (रुपये उन्नीस लाख मात्र)	बुध नगर (उ.प्र.), माप 55.13 वर्ग मी. (593 वर्ग फीट) सुपर एरिया–35.92 वर्ग मी, कवर्ड एरिया +19.21 वर्ग मी में स्थित अंसल प्लाजा ग्रेटर नोएडा में द एट्रियम, भू तल पर शॉप नं. ए जी–086 मार्ट गैजर का नामः श्री मनोज अग्रवाल पुत्र स्व. श्री ओम प्रकाश अग्रवाल	(केएफएसएल) 2. 28.9.2018 3. फीनिक्स ट्रस्ट एफ वाई 19–10
	3.	श्रीमती सविता भाटी, पत्नी संजय कुमार भाटी एवं श्री संजय कुमार भाटी, पुत्र श्री खीमा सिंह, दोनों: ओल्ड नं. 228-ए/1, नया नं. 275		

टीएफ, प्रकाश मोहल्ला, गढ़ी, नई दिल्ली-110065, साथ ही दोनों। 228-ए/1, तीसरा तल, प्लॉट नं. 97 2. 28.9.2018 228-ए/1, टीएफ, प्रकाश मोहल्ला, गढ़ी, नई दिल्ली-110065, मार्टगैजर का नामः श्रीमती सविता भाटी 3. फीनिक्स ट्रस्ट एफवाई 19-10 साथ हीः श्रीमती सविता भाटी, 39, भूतल, जमरुदपुर, ग्रेटर कैलाश, 4. 18.3.2021 पंजाबी मोहल्ला, नई दिल्ली-110065 ऋण खाता संख्याः PR00414738 30,02,692/- (रुपये तीस लाख दो हजार छः सौ स्वीकृत ऋण राशिः रु. 2000000/- (रुपये बीस लाख मात्र) बानवे) के साथ सम्पूर्ण भगतान तक लागत एवं चार्जेज

के साथ 19.3.2021 से लाग आगे का ब्याज 4. श्री अतुल जैन एवं श्रीमती पूजा जैन, दोनों: 6ए55, 2रा तल, राजा पटनीमल साहिब गली, बामाकलान, सदर बाजार, 1. कावी फाइनोसियल सर्विसेस लिमिटेड डब्ल्यईए करोल बाग, नई दिल्ली, दिल्ली-110005, साथ ही दिल्ली-110005 में स्थित सम्पर्ण दसरा तल एवं सम्पर्ण (केएफएसएल) 423, पोल नं. 414 के निकट, मैन नजफगढ़ रोड, क्रॉसिंग के तीसरा तल, छत के अधिकार के साथ, सम्पत्ति एमपीएल नं. 2. 28.2.2020 निकट, द्वारका, नई दिल्ली-110077, साथ ही: दूसरा तल, सम्पत्ति XIV/4036 (पुराना नं.) XIV/4203 से 4205 (नय 3. फीनिक्स ट्रस्ट एफवाई 20-16 स्कीम सी म्यनिसिपल नं. XIV/4036 (पराना नं.) का भाग, राजा पटनीमल नं.) का भाग, माप 55 वर्ग यार्ड्स का सभी भाग तथा हिस्सा 4. 21.12.2020

पर्वः गली, पश्चिमः अन्य सम्पत्ति ४१९५, उत्तरः सम्पत्ति सं ५, १६.१२,२०२० को रु. ३६४९७७४ (रुपये छत्तीस साहिब गली, बमाकलान, सदर बाजार, दिल्ली-110005 4206, दक्षिणः सम्पत्ति सं. 4202 ऋण खाता संख्याः PR00423202 स्वीकृत ऋण राशिः रु. 300000/- (रुपये तीस लाख मात्र) मार्टगैजर का नामः श्रीमती पुजा रानी 5. मै. मनीश एप्पैरल्स आईएनसी, द्वारा उसके प्रॉप्राईटर श्री मनीश सम्पत्ति 1: ग्राम नांगली जालब, न्यु महावीर नगर के नाम से 1. कार्वी फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड कमार, 378, गुली नं, 29, 3रा तल, ओंकार नगर, दिल्ली- विदित कॉलोनी, गुली नं, 14, ब्लॉक-एल, नई दिल्ली- (केएफएसएल) 110038 एवं श्री मनीश कुमार, पुत्र श्री रमेश कुमार एवं श्रीमती 110018 में स्थित खसरा नं. 57 के भाग में प्लॉट नं. 1बी 2. 28.9.2018

संगीता कपुर, पत्नी श्री राजिन्दर नाथ एवं श्रीमती आशा कपुर, पत्नी भृमि क्षेत्रफल माप 65 वर्ग यार्ड्स के निर्मित भाग में निर्मित 3. फीनिक्स ट्रस्ट एफवाई 19-10 श्री रमेश कपुर, सभीः डब्ल्युजेड 5डी, गली नं. 14, न्यू महावीर सम्पत्ति सं. डब्ल्युजेड-5-डी में बिना छत के अधिकार के 4. 4.3.2021 5. 4.3.2021 को बकाया तथा देय रु. 6675109.77 प्रथम तल सम्पत्ति 2: ग्राम नांगली जालब, न्यू महावीर नगर के नाम से (रुपये छियासठ लाख पचहत्तर हजार एक सौ नौ एवं

ऋण खाता संख्याः PR00421803 स्वीकृत ऋण राशिः रु. 4080000/- (रुपये चालिस लाख अस्सी विदित कॉलोनी, गली नं. 14, ब्लॉक-एल, नई दिल्ली- पैसे सतहत्तर मात्र) के साथ सम्पूर्ण भुगतान तक 110018 में स्थित खसरा नं. 57 के भाग में प्लॉट नं. 1बी लागत एवं चार्जेज के साथ 5.3.2021 से लागू आगे भूमि क्षेत्रफल माप 65 वर्ग यार्ड्स के निर्मित भाग में निर्मित का ब्याज सम्पत्ति सं. डब्ल्यजेड-5-डी में बिना छत के अधिकार व भृतल का सम्पूर्ण भाग (यहां के बाद उक्त सम्पत्ति वर्णित) उसके अंतर्गत भिम में फ्री होल्ड अधिकार के साथ। चौहद्दी

पूर्वः सम्पत्ति सं. 1 सी का शेष भाग, पश्चिमः 15 फीट चौड़ी गली, उत्तरः अन्य की सम्पत्ति, दक्षिणः अन्य की सम्पत्ति मार्टगैजर का नामः श्रीमती संगीता कपुर (सम्पत्ति 1) एव

मनीश कुमार (सम्पत्ति 2)

6. श्री रघविन्दर सिंह (श्री राघविन्दर सिंह/रघविन्दर सिंह के नाम से ग्राम बसई दारापुर, राजा गार्डन के नाम से विदित कॉलोनी 1. कार्वी फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड भी लोक प्रिय) पुत्र श्री अवतार सिंह एवं श्रीमती डिम्पी, पत्नी श्री नई दिल्ली में स्थित सम्पर्ण भु तल (उक्त तल), सम्पत्ति सं (केएफएसएल) रघविन्दर सिंह (श्री राघविन्दर सिंह/रघविन्दर सिंह के नाम से भी 226 पर निर्मित, एरिया माप 221.2/9 वर्ग यार्ड्स, खसरा नं 2. 28.9.2018 लोक प्रिय) 3996/2496/1929/ तथा 3984/2500/1934 में से) 3. फीनिक्स ट्रस्ट एफवाई 19-10 दोनों: मकान सं. 226, भू तल, राजा गार्डन, दिल्ली-110015, मार्टगैजर का नामः श्री रघविन्दर सिंह (श्री राघविन्दर 4. 12.3.2021

साथ ही: श्री रघविन्दर सिंह, आरजेड-376, भू तल, विष्णु सिंह/रघविन्दर सिंह के नाम से भी लोक प्रिय) 5. 11.3.2021 को रु. 14289432/- (रुपये एक करोड बयालिस लाख नवासी हजार चार सौ बत्तीस गार्डन, नई दिल्ली-110018 मात्र के साथ सम्पूर्ण भुगतान तक लागतों तथा चार्जेज ऋण खाता संख्याः PR00387924

आपका ध्यान प्रतिभृत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है जिसके अनुसार उपरोक्त प्रावधानों में निर्दिष्ट अवधि के भीतर आप प्रतिभत परिसम्पत्तियों को विमोचित कर सकते हैं। कृपया ध्यान रहे कि उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के अनुसार हमारी सहमित के बिना आप बिक्री, पट्टा अथवा अन्य रूप से उपरोक्त प्रतिभृतियों को अंतरित

अतएव, आप ऋणधारक/ कों तथा सह-ऋणधारक/कों को एतदुद्वारा सुचित किया जाता है कि इस सुचना के 60 दिनों के भीतर यहां ऊपर वर्णित ब्याज के साथ उपरोक्त

मांग की गई राशि का भुगतान करें, अन्यथा अधोहस्ताक्षरी ऊपर वर्णित प्रतिभृतियों को प्रवर्त्तित करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे

करने के लिए अधिकार से वंचित हैं।

प्राधिकृत अधिकारी फीनिक्स एआरसी प्राईवेट लिमिटेड के लिये

পাহাড়ি গ্রামে ঝিঁঝির ডাক নাকি অশনিসঞ্চেত



দীর্ঘ সফর শেষ। পাহাড় থেকে সমুদ্র পর্যন্ত মন্থন করে প্রতিবেদন।

অরূপ বসু

দিঘলকান্দির বাঘডাঙা গ্রামের প্রণব সরকারের সঙ্গে আর কখনও দেখা হবে কি না জানি না। ওদের বাড়িতে দিনদুপুরে শেয়াল ঘুরে বেড়ায়। রান্নাঘরে ঢুকে পড়ে। প্রণবদের বাড়ি থেকে কয়েকপা গেলেই কাঁটাতারের বেড়া। বাড়িতে থাকলে প্রণবও সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কাছে ভোটার কার্ড জমা রেখে ফসলের মাঠে যায়। শেষ দপরে ফেরে। প্রণব বহরমপুরের সরকারি কলেজে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে। বহরমপুর থেকে করিমপুর আসার পথে প্রণবের সঙ্গে প্রথম আলাপ। বলেছিল. চাকরি নিয়ে কলকাতার মতো বড় শহরে

প্রণবের কথা শুনে আমার দাফার কথা মনে পডেছিল। ১৯৬১ সালে দাফার স্মৃতিতে পদাতিক কবি সুভাষ লিখেছেন, মাটির ঘরে কাঁথা মুড়ি দিয়ে কাঁপছি। কপাটহীন জানলা দরজা দিয়ে দেখছি জ্যোৎস্না গায়ে মেখে দুরে দাঁড়িয়ে গারো পাহাড়। আমি তক্তপোশে আর দাফা মেঝেতে। তিনকুলে কেউ ছিল না তার। গরু চুরির অভিযোগে বেদম মার খেয়েছিল। রাস্তা থেকে তুলে এনে দাফাকে রাখাল করে দিল ললিত। সবাই হাবাগোবা বলেই জানত। সেই দাফা লড়তে শিখল। ঝান্ডা হাতে প্রচারে যাওয়া, হাটে হ্যান্ডবিল বিলি করা, চোঙা ফোঁকা— সব কাজেই

দাফার ইচ্ছে শহরে যাওয়া, রেলগাড়ি দেখা। শহরে নাকি খুব আলো!

টাইগার রিজার্ভে রাজাভাতখাওয়ায় চৈতন্যঝোরা ছেড়ে একটু এগোলেই গারোপাড়া বনবসতি। বনের ধারে ঝোরার জলে খেতভরা ফসল। বাবলু ডাবুর, আসলে রাভা। বনের ধারে চা–বাগানে নালার মধ্যে যেখানে ঘাপটি মেরে শাবক নিয়ে চিতাবাঘ থাকে, পূর্ণিমা রাতে সেখানে নিয়ে গিয়েছিল। রাতারাতি যারা বনের গাছ কেটে নদীর জলে ভাসিয়ে দেয়, বাবলু বনবাবুকে তাদের খোঁজ দেয়। কিছ টাকাও পায়। আশায় থাকে, একদিন ফরেস্টারের কাজ পাবে।

পাঁচথপির পথে বডোঞা ডাকঘরের কাছে ঘোষমৌলিক পাড়া। ১ একর ১০ ডেসিমেলের ওপর ৭ উঠোন, ১৪৪ ঘরের তিনতলা জমিদার বাড়ি। ভেঙে পড়ছে, বাঙালির হিন্দ্-মসলমান অবিভক্ত সত্তা। ৩৫টি ঘব অবশিষ্ট আছে মাত্র। চণ্ডীমণ্ডপে কষ্টিপাথরের মাধব। অষ্টধাতুর রাধা ও বুকে ছুরি বসাল? ললিতা। এদিকে বনেদি বাড়ির মূর্তি চুরি হয় খুব।

পাঁচথুপির রায়জির বড়োঞা সিংহবাহিনীর মূর্তি কয়েকবার চুরি হয়েছে। ভাঙা দালানের অন্ধকার সিঁড়ি সুদীপ ঘোষমৌলিক কংগ্রেস বিধায়কের

কথা। এবার ভোটে আগে থেকে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। এক সময়ে বামেরা ছিল। তৃণমূল আসার পর তারা কেন বিজেপি-কে আনার কথা ভাবছে!

কান্দির রীতেশ ব্যানার্জি, বুম্বা—

চড়ে একদিন জাজনে গেলাম। সর্বমঙ্গলা আর শিবমন্দির পাশাপাশি। সামনে, বাঁয়ে দুটো বিশাল পুকুর। সেই মাছেই মায়ের নিত্য ভোগ। শিবমন্দিরের পাশে সুড়ঙ্গে ধাপে ধাপে সিঁড়ি নেমে গেছে। কতদুর, কোথায়— কখনও কেউ সাহস করে নামেনি।

মাঠভর্তি সবজ ফসল, পকর ভর্তি মাছ, গোয়ালভরা গরু, সবজি, মাছ, দুধের ভাল কারবার। ভাগীরথী, আমূল, রেডকাউ ঘর ঘর থেকে দুধ সংগ্রহ করে।

মার্চের মাঝামাঝি শুরু করেছিলাম নিমতিতা, ধুলিয়ান দিয়ে। আলিপুরদুয়ার, বক্সা বন্দিশালা, ঝাড়খণ্ড সীমান্তের মশানজোড়, বাংলাদেশ সীমান্তের তেহট্ট, করিমপর, হিলি, বনগাঁ, ওডিশা সীমান্তের মেদিনীপুর, ঝাড়খণ্ড লাগোয়া পুরুলিয়া, সুন্দরবন — সাগর কিনারে পাথরপ্রতিমা বাংলার গ্রামের মুখ দেখে দেখে ফিরেছি। মাঝেমধ্যে তা দেখে বক কেঁপে উঠেছে। বাংলার শরীরে কত দাগ টেনে দিচ্ছে ওরা? বিক্ষত দাগ!

প্রথম প্রথম মনে হয়েছিল, এটা বোধহয় হিন্দু-মুসলমানের বিভেদ রেখা। কুখ্যাত গোপাল পাঁঠার তথ্যচিত্র মোবাইলে মোবাইলে ঘুরছে। সে নাকি মুসলমানদের আক্রমণ থেকে হিন্দুদের বাঁচিয়েছিল। তেহট্ট, করিমপুরে, হিলিতে একদা উদ্বাস্ত বামপন্থী বাঙালিদেরও বলতে শুনেছি, তৃণমূল সরকারের অনেক প্রকল্পে গ্রামীণ মানুষের সুবিধা হয়েছে। তা বলে মসলমানদের এতটা মাথায় তুলবে? বড্ড বাড় বেড়েছে। ওদের একটু সাইজ করা

অতীত বাংলাদেশের সব জমিদারই তো হিন্দ! বেশিরভাগেরই মূল ঘাঁটি কলকাতার আশপাশে। রবীন্দ্রনাথও বলেছেন, জমিদারির কাছে যখন গেছি, দেখেছি, মুসলমান প্রজারা এলে ফরাসের একটা দিক গুটিয়ে তাদের মেঝেতে বসতে দেওয়া হত! অমৰ্ত্য সেন ছেলেবেলায় দেখেছেন, ঢাকায় দাঙ্গার সময়ে হিন্দু পাড়ায় একটা ক্ষুধার্ত মুসলিম ভিখারি ঢুকে পড়ে ছিল। তার রক্তাক্ত দেহ শেষ পর্যন্ত তাঁদের বৈঠকখানায় এসে প্রাণত্যাগ করে! প্রশ্ন করেছিলাম, বঙ্গভঙ্গ রুখে দিয়েছিল

অমর্ত্যর জবাব, নানাধরনের সাম্প্রদায়িক স্মৃতি মানুষের মনে থাকে! সেটাকেই পুষ্ট করে কোনও শক্তি বা পরিস্থিতি।

দেড়মাস ধরে বাংলার গ্রামে গ্রামে বেয়ে সবে একটু আলোর কাছে পা যুরে টের পেয়েছি, বিজেপি অনেকাংশে ফেলেছি— সামনে ফুটফুটে কিশোরী। সেটা করতে পেরেছে। শ্যামাপ্রসাদের আমি সম্পূর্ণা, তোমার কী চাই। ওর দাদুকথা বলে। যে শ্যামাপ্রসাদের হিন্দুত্ববাদী আচরণের বিরুদ্ধে নেতাজি সুভাষ খড়াহস্ত হয়ে উঠেছিলেন। বাংলায় ফজলুল হকের প্রণব, ডাবুর, সুদীপ— সবারই এক মুসলিম লিগ সরকারে শ্যামাপ্রসাদের নেতৃত্বে হিন্দুমহাসভা যোগ দিয়েছিল। শ্যামা হক সরকারের স্বাদ মিটে গেলে হিন্দু বাঙালির জন্য আলাদা রাজ্য চেয়ে যেন বসে গেল। পঞ্চায়েত ভোটে অনেক বল্লভভাই প্যাটেলকে চিঠি দিয়েছিলেন। জায়গায় বিরোধীদের লড়তে দিল না। আর তখন নেতাজির দাদা শরৎ বোস যারা দিল না, তারাই আজ বেশিরভাগ স্বাধীন অখণ্ড বাংলার জন্য কংগ্রেস ও জায়গায় বিজেপি–তে। অথচ সেই রাগে সুসলিম লিগ নেতাদের সঙ্গে কথা বলছেন। বামেরা এ-সব কোথাও কোথাও বলছেন।

গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং-এর পর আমার ভাইয়ের মতো। ওর বাইকে বেলেঘাটায় ঢাকার নবাব বাড়িতে গান্ধীজি



দাঙ্গার দগদগে ঘা। গান্ধীজির অহিংস অনশন সত্যাগ্রহের স্মৃতিমাখা বেলেঘাটার গান্ধী ভবন। ফাইল ছবি

অনশনে বসেছেন। জ্যোতি বসু-সহ কমিউনিস্ট নেতারা দেখা করতে গেছেন। গান্ধী বলেন, আপনারাই পারবেন। এই সময়ে হিন্দু-মুসলমান মিলিত মিছিল পরিস্থিতি স্বাভাবিক করবে।

গান্ধীজির কথায় মহম্মদ ইসমাইলের নেতৃত্বে ট্রাম কোম্পানির কর্মীরা দাঙ্গা–ধুস্ত এলাকায় মিছিল বের করেছে। এ মিছিল শোকে মৌন, প্রতিবাদে মুখর। কাজ হয়।

গোপাল পাঁঠা ভাইরাল হল। দাঙ্গা বিরোধী মিছিল তো হল না! বামেরা এবার বাধাহীন প্রচার চালাচ্ছে। কিন্তু এ-সব কথা জানেই না। সাম্প্রদায়িকতার বিষ একই ধর্মের, জাতের মধ্যে কতরকম বিভেদরেখা টানে। বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি নাকি বাঙালির পরিচয় নয়। বাঙালি শুধু সেই, যে সনাতন হিন্দু ধর্মের আচরণকারী বাংলাভাষী। সেদিক থেকে ঝাড়খণ্ড, নেপাল সীমান্তের বহু অবাঙালিকে বাঙালি বলে চালানো হচ্ছে। আর রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, মাইকেল মধসদন, আলাউদ্দিন, আলি আকবর— কেউ বাঙালি নন। বলার

অথচ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমরাই হই হই করে বর্ডার খুলে দিয়েছি। অস্ত্র ও শাস্ত্র হাতে ওদের পাশে দাঁডিয়েছি— বাঙালি বলেই তো?

আর তখনই শাসকের পেয়াদা মুসলিম বাঙালি, মুক্তিকামী মুসলিম বাঙালির ওপর কী ভয়ঙ্কর অত্যাচারই না করেছে। খলনার বাজারে গেলে আক্রামের ওপর মেহের আলির অত্যাচারের বিবরণ আজও শোনা যায়— মোনাজাত শেষ করার পর আক্রামকে ঝলিয়ে দিল গোড়ালিতে লোহার শিক ঢুকিয়ে। তারপর মেহের আলি হাত পায়ের পেশির মাংস কেটে কেটে কুকুরকে খাওয়াল। আক্রামের মোনাজাত করার আওয়াজ ক্ষীণ হয়ে এল তবু মুক্তিযুদ্ধের গোপন কথা ফাঁস

রাজবংশীদের বুঝিয়ে দিয়েছে তারা বাংলা বা বাঙালির অংশ নয়। একইভাবে গোর্খা, সাঁওতাল, কোল, মুন্ডা টুকরো তীব্র মেরুকরণ। সবাই ভাবছে বিজেপি এলে স্বায়ত্তশাসন। বডোঞা থেকে কান্দি ফিরছি। গাড়ির চালক বলল, বাম আমলে এত দুর্নীতি ছিল না। কিন্তু ৩৪ বছরে শিল্প হয়নি বলে এত বেকার। সহযাত্রী বলল, গাড়ি, ইস্পাতের কারখানা করতে গিয়েই তো জমি নিয়ে গন্ডগোল। শিল্পের জন্য দরকার বড় পুঁজি। বৃহৎ গোষ্ঠী কিংবা কেন্দ্রীয় সরকার। দুর্গাপুর স্টিলের পর মনমোহন সিংয়ের সরকার আবার পশ্চিমবঙ্গে পুঁজি ঢালতে এসেছিল—

यूनियन बैंक Union Bank

বালিগঞ্জ শাখা ২য় তল. ৯৭. কডেয়া রোড. কডেয়া থানা সংলগ্ন, কলকাতা–৭০০ ০১৯

পরিশিষ্ট IV, [রুল ৮(১)] **দখল বিজ্ঞপ্তি** (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

ষহেতু **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইভিয়া (পূর্বতন করপোরেশন ব্যঙ্ক)**–এর অনুমোদিত অফিসার হিসে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর (রুল ৩) সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ত্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট [আ্রাক্ট], ২০০২ (২০০২–এর ৫৪)–এর ১৩(১২) ধারা অনুযায়ী তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা মিঃ শাইক শাকিরুল ইসলাম, জামিনদার মিঃ শেখ শানারুল ইসলাম, গ্রাম ধুনকি, পোঃ ধুনকি, থানা পাঁচলা, জেলা হাওড়া, পিন ৭১১৩২২–এর ০৯.০৪.২০১৯ তারিখ সংবলিত দাবি বিজ্ঞপ্তি ইস্যু করেন, যাতে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থান্ধ ₹১০,৬০,০০০.০০ **(দশ লাখ ষাট হাজার টাকা মাত্র) ৩১.০৩.২০১৯** অনুযায়ী ও সৃদ, আনুষঙ্গিক খরচ ও মূল্য পরিশোধ করার জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।

উক্ত ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার ওই অর্থাঙ্ক পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্বারা বিশেষত উক্ত ঋণগ্রহীতা জামিনদার এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে. নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল নং ৮ সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪) ধারা অনুযায়ী তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে ২৮ এ**প্রিল, ২০২১ তারিখে** নীচে বর্ণিত সম্পত্তিগুলির দুখল নিয়েছেন। বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার এবং জনসাধারণকে এতদ্ধারা উক্ত সম্পত্তিগুলি নিয়ে কোনওরুগ লনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তিগুলি নিয়ে যে কোনওপ্রকার লেনদেন ₹১০.৬০.০০০.০০ (দশ লাখ ষাট হাজার টাকা মাত্র) ৩১.০৩.২০১৯ অনুযায়ী ও সুদ, তদুপরি

গুলযোগ্য চার্জ সমেত ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া–এর চার্জ সাপেক্ষ হবে। উক্ত আক্টের ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারার সংস্থান অন্যায়ী উপলব্ধ মেয়াদের মধ্যে নিম্নলিখিত জামিনযুক্ত পরিসম্পদগুলি ছাড়ানোর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের মনোযোগ

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

জমির মৌজা– রঘনাথপর, জে এল নং ৯৯, সাবেক দাগ নং ১০১৩, এল আর দাগ নং ৫৫৫, হাল খতিয়ান নং ৮৬৩/২, এল আর খতিয়ান নং ২১৯৯, থানা উল্বেড়িয়া, রঘুদেবপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, জেলা হাওড়া, এ ডি এস আর উলুবেড়িয়া, জেলা ও রেজিস্ট্রি অফিস হাওড়া, –এর নামে। সম্পত্তির চৌহন্দি: উত্তর-শেখ হাস্মত আলির জমি; দক্ষিণ- মূলয় মন্ডল ও নিমাই সাধুখাঁর জমি; পূর্ব- আজিম হাই স্কুলের খেলার মাঠ: পশ্চিম– গ্রাম্য রাস্তা। বিক্রয় দলিল নং ৩২২৮/২০০৩ অন্যায়ী। বন্ধকী সম্পত্তি এ ডি এস আর উলুবেড়িয়ায় রেজিস্টার্ড।

অনুমোদিত অফিসার, ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া তারিখ: ২৮.০৪.২০২১; স্থান: কলকাতা

পেট্রোকেমিক্যাল। তখন কিন্তু বিজেপিও চায়নি, এটা এখানে হোক। ১৯৯০ সাল পর্যন্ত ছিল লাইসেন্স প্রথা। কেন্দ্রীয় সরকার ঠিক করত কোন বেসরকারি বড় পঁজি কোন রাজ্যে বিনিয়োজিত হবে! বাংলাকে বঞ্চিত করা হয়েছে। আর ছিল মাশুল সমীকরণ। বাংলার কয়লা গুজরাট, মহারাষ্ট্র সস্তায় পাবে। যতদুরে যাবে, তত সস্তা। অথচ বাংলা মহারাষ্ট্রের তুলো সস্তায় পাবে না। বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল বন্ধ হয়ে গেল। লাইসেন্স প্রথা, মাশুল সমীকরণ বাংলার উচ্চ শিক্ষিতরাই জানে না, সাধারণ মানুষ, রাজনৈতিক কর্মীরা তো এ-সব শুনলে

1 Date

ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকছে। বাংলার বেশিরভাগ চাষি ভূমিহীন। আগে তব নথিভুক্তির ব্যাপার ছিল— এখন পরিচয়হীন। বাঁচোয়া, গত দশ বছরে ঘূর্ণিঝড় ছাড়া অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টির জন্য ফসল নষ্ট হয়নি। কিন্তু উৎপাদিত ফসলের ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ এখনও পচন থেকে বাঁচানো যাচ্ছে না। তবে যেখানে ভারতের ১৬ শতাংশ গ্রাম পিচ বা ঢালাই সড়কে যুক্ত নয়, বাংলার প্রতিটি গ্রাম যুক্ত। করোনাকালে কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রি করে বহু শহুরে মানুষও নতুন আয়ের পথ দেখেছে।

April 20 2021

বিএসএনএল-কে রক্তপুন্য করে মেরে ফেলছে। অথচ এই সময়ে ভোটের দিনেও তারা গ্রাহকদের বলছে, আপনার ফোনের টিউনে 'জয় শ্রীরাম' যুক্ত করুন।

বাংলাদেশে গোধন পাচার নিয়ে অনেক হইচই, রাজনীতি। অথচ ধলিয়ানে যান। প্রতি সন্ধ্যায় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর নির্দেশে সাধারণ লোকের জরুরি কাজ ছাড়া রাস্তায় বেরোনো নিষেধ। অথচ কোখেকে কাতারে কাতারে গরু আসে। পদ্মা পেরিয়ে ওদিকে চলে যায়। শিঙে বাঁধা থাকে কম দামি মোবাইল। সেটাই ইঙ্গিত কার গরু, কার কাছে যাবে। বাংলাদেশে

জবাই হয়ে মাংস যাবে আরবে। সারারাত এ-সব চলে।

শোনা যায় মধ্য ভারত থেকে কল কুল করে গরুর স্রোত মুর্শিদাবাদে ঢুকে বাংলাদেশে যায়। পদ্মাপারে কান পাতুন। রাতের কল্লোল বলে দেবে কোথাকার গরু কোথায় যায়। আসল পাচারকারী কে!

১৯৫২ সালের নির্বাচন। চাষি ভোট দিয়ে ফিরছে। জমিদারের নায়েব শুধালো, হ্যাঁ রে ঠিক জায়গায় ছাপ দিয়েছিস তো? —আজ্ঞে কত্তা. সে আর বলতে! খটকা লাগল। তব নায়েব জোড়া বলদ দেখালে। চাষি বললে, গরুর তো বয়েস হয়ে বড় বড় চুল দাড়ি গইজেছে। মাস্টার তো আমায় তেমন ধারাই বললে গো। নায়েবের মাথায় হাত। গরুর কি চুল,

দাড়ি হয়? ওটা তো সিংহ, ফরওয়ার্ড ব্লক। খণ্ডঘোষের এক বদ্ধের কাছে গল্পটা শোনা। গরিবকে বোকা বানাতে পারলেই

বাংলা ১৩০৪ সালে জমিদার রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, মাড়োয়ারি দখল স্থাপনের উদ্দেশে ক্রমশ সমস্ত বাংলা ঘানির পাকে ঘুরিয়ে তার সমস্ত তেল নিংড়ে নিতে পারে। ঘরের দিকে বেনো জল ঢোকাবার অনুকূল খাল খনন কি

রায়তের পক্ষে ভাল? বাংলা থেকে ভিন রাজ্যে শ্রমিক যায় নাকি এ রাজ্যে ভাত ও কাজ নেই বলে। তা বেশ। দার্জিলিং পাহাড়ে রিম্বিক। চাকার চলা শেষ। এরপর শ্রীখোলার মতো পাহাড়ি গ্রামের দিকে শুধুই পায়ে চলা পথ। পিঠে বাঁধা অসুস্থ মানুষ। সবচেয়ে বড় দোকানের নাম মাহেশ্বরী ভাণ্ডার। চার পরুষের কারবার। বলেছিল, যঁহা ন চলে বয়েল গাড়ি/ উঁহা চলে মাড়োয়ারি। ওরা কেন এল? আজ এরা সবাই বাংলা ভাগের রাজনীতি করছে। ডুয়ার্স, দার্জিলিং পাহাড়ে ঝিঁঝিঁ ডাকলে মন্দিরে ঘণ্টাধুনির মতো শোনায়। এটা কি অশনি সঙ্কেত?

MAGMA FINCORP LIMIT

Registered Office: Development House, 24, Park Street, Kolkata - 700016 Tel. No.: +91 (033) 444017350; Website: www.magma.co.in; CIN: L51504WB1978PLC031813

Recommendations of the Committee of Independent Directors ("IDC") of Magma Fincorp Limited ("Target Company") on the Open Offer (as defined below) made by Rising Sun Holdings Private Limited ("Acquirer") together with Mr Sanjay Chamria ("PAC 1") and Mr Mayank Poddar ("PAC 2"), in their capacity as the persons acting in concert with the Acquirer (collectively, "PACs") to the public shareholders of the Target Company, under Regulation 26(7) of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 ("SEBI (SAST) Regulations")

2. Name of the Target Company (TC) 3. Details of the Offer pertaining to TC Open offer for the acquisition of up to 19,88,32,105 fully paid-up equity shares havin value of INR 2/- each ("Equity Shares"), representing 26% of the Expanded Votin Capital (as defined in the Letter of Offer dated April 28, 2021) of the Target Company all public shareholders of Target Company, made by the Acquirer and the PACs ("Open offer"), at a price of INR 70.27/- per Equity Share, being the offer price of INR 70.27/- per Equity Share, being the offer price of INR 70, 27/- per Equity Share, in Regulation 3(1) and 4 of SEBI (SAST) Regulations. The Public Announcement dated 10, 2021 (the "PA"), Detailed Public Statement published on February 17, 2021 (the Letter of Offer dated April 28, 2021 (the "LoF") have been issued by Axis Capital Lim Manager to the Open Offer, on behalf of the Acquirer and the PACs. 4. Name(s) of the acquirer and PAC with the acquirer - Rising Sun Holdings Private Limited PAC 1 - Mr Sanjay Chamria PAC 2 - Mr Mayank Poddar 5. Name of the Manager to the offer Axis House, C-2 Wadia International Centre, P. B. Marg, Worli, Mumbai - 4 Maharashtra, India Tel: +91 22 4325 2183; Fax: +91 22 4325 3000 Email: magma.openoffer@axiscap.in Contact Person: Mr Ankit Bhatia SEBI Registration No: INM000012029 6. Members of the Committee of Independent Directors (IDC) (Please indicate the chairperson of the Committee separately) 7. IDC Member's relationship with the TC All the IDC Members are Independent and Non-Executive Directors of the TC and not	
value of INR 2/- each ("Equity Shares"), representing 26% of the Expanded Votin Capital (as defined in the Letter of Offer dated April 28, 2021) of the Target Compa all public shareholders of Target Company, made by the Acquirer and the PACS ("Open offer"), at a price of INR 70.27/- per Equity Share, being the offer price of INR Equity Share ("Offer Price") together with interest of INR 0.27/- per Equity Share, in Regulation 3(1) and 4 of SBII (SAST) Regulations. The Public Announcement dated F 10, 2021 (the "PA"), Detailed Public Statement published on February 17, 2021 (the Letter of Offer dated April 28, 2021 (the "LoF") have been issued by Axis Capital Lim Manager to the Open Offer, on behalf of the Acquirer and the PACs. 4. Name(s) of the acquirer and PAC with the acquirer Acquirer - Rising Sun Holdings Private Limited PAC 1 - Mr Sanjay Chamria PAC 2 - Mr Mayank Poddar 5. Name of the Manager to the offer Axis Capital Limited 1st Floor, Axis House, C-2 Wadia International Centre, P. B. Marg, Worli, Mumbai - 4 Maharashtra, India Tel: +91 22 4325 2183; Fax: +91 22 4325 3000 Email: magma.openoffer@axiscap.in Contact Person: Mr Ankit Bhatia SEBI Registration No.: INM000012029 Mrs. Vijayalakshmi R lyer - Chairperson Mr. Sunil Chandiramani Mr. Bontha Prasada Rao Mr. Bontha Prasada Rao	
the acquirer PAC 1 - Mr Sanjay Chamria PAC 2 - Mr Mayank Poddar Axis Capital Limited 1st Floor, Axis House, C-2 Wadia International Centre, P. B. Marg, Worli, Mumbai - 4 Maharashtra, India Tel: +91 22 4325 2183; Fax: +91 22 4325 3000 Email: magma.openoffer@axiscap.in Contact Person: Mr Ankit Bhatia SEBI Registration No.: INM000012029 Members of the Committee of Independent Directors (IDC) (Please indicate the chairperson of the Committee separately) Mrs. Vijayalakshmi R Iyer - Chairperson Mr. Sunil Chandiramani Mr. Bontha Prasada Rao	g Shar ny, fror Offer" o 70/- pe terms o ebruar "DPS"
1st Floor, Axis House, C-2 Wadia International Centre, P. B. Marg, Worli, Mumbai - 4 Maharashtra, India Tel: +91 22 4325 2183; Fax: +91 22 4325 3000 Email: magma.openoffer@axiscap.in Contact Person: Mr Ankit Bhatia SEBI Registration No.: INM000012029 6. Members of the Committee of Independent Directors (IDC) (Please indicate the chairperson of the Committee separately) Mrs. Vijayalakshmi R Iyer - Chairperson Mr. Sunil Chandiramani Mr. Bontha Prasada Rao	
Independent Directors (IDC) (Please indicate the chairperson of the Committee separately) Mr. Sunil Chandiramani Mr. Bontha Prasada Rao	00 025
7 IDC Member's relationship with the TC All the IDC Members are Independent and Non-Executive Directors of the TC and nor	
(Oirector, Equity shares owned, any other contract / relationship), if any	e of th
 Trading in the Equity shares/other securities of the TC by IDCMembers None of the members of IDC have traded in any of the equity shares/other securities are commended in the Equity shares of IDC have traded in any of the equity shares/other securities are commended in the Equity shares of IDC have traded in any of the equity shares of IDC have traded in any of I	
9. IDC Member's relationship with the acquirer and PACs (Director, Equity shares owned, any other contract / relationship), if any. None of the Members of IDC: (a) are directors of the Acquirer; or hold any equity shares or other securities of the Acquirer; or have any contracts/relationship with the Acquirer or the PACs.	
10. Trading in the Equity shares/other securities of the Acquirer by IDC Members None of the IDC members have traded in equity shares/other securities of the Acquirer by IDC Members None of the IDC members have traded in equity shares/other securities of the Acquirer the period of 12 months prior to the PA dated February 10, 2021 and till the date recommendation.	
11. Recommendation on the Open offer, as to whether the offer is fair and reasonable The IDC is of the opinion that the price of INR 70.27/- per Equity Share, being the Offer INR 70/- per Equity Share together with interest of INR 0.27/- per Equity Share, offere Acquirer is in accordance with the regulations prescribed under the SEBI (SAST) Regard accordingly, the open offer is fair and reasonable.	d by th
12. Summary of reasons for recommendation (IDC may also invite attention to any other place, e.g. company's website, where its detailed recommendations along with written advice of the independent advisor, if any can be	ne Ope r Equit that th ulations

: কলকাতা

ি ICICI Bank ক্রাপ্ত ক্রার, কলকাতা - 700020 ব্রাঞ্চ অফিস: আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, 228A, এ জে সি বোস রোড, ল্যান্ডমার্ক বিল্ডিং,

প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি – জামিনযুক্ত পরিসম্পদ বিক্রয়ের জন্য টেডার তথা নিলাম

[রুল ৪(6)–এর সংস্থানসমূহ দ্রষ্টব্য

স্থাবর পরিসম্পদসমূহ বিক্রির জন্য বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইণ্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, 2002–এর রুল ৪(6)–এর সংস্থানসমূহ সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যাভ রিকনষ্ক্রাকশন অফ ফিনালিয়াল অ্যাসেটস অ্যাভ এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইণ্টারেস্ট অ্যাক্ট, 2002 অধীনে স্থাবর পরিসম্পদসমূহ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগুহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর জ্ঞাতার্ধে জানানো যাচ্ছে যে, আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড–এর অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা ব্যবহারিক দখল নেওয়া ও জামিনযুক্ত ঝণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/ দাখিলযোগ্য নিম্নবর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি 'যেখানে আছে সেখানে', 'যা কিছু আছে তা' এবং 'যেমন আছে তেমন' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে যার সংক্ষিপ্ত তথ্য এখানে নীচে

or one conec.						
ক্রম	ঋণগ্ৰহীতা/ সহ –ঋণগ্ৰহীতা/	জানা দায় (যদি থাকে)	বকেয়া	সংরক্ষণ মূল্য (₹)	সম্পত্তি	নিলামের
নং	জামিনদারগণ–এুরু নাম	সমেত জামিনযুক্ত	অর্থান্ধ	বায়না জমা (₹)	পরিদর্শনের	তারিখ
	এবং লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	পরিসম্পদের বিবরণ	(₹)	पात्रना अमा (र)	তারিখ ও সময়	ও সময়
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
٥	মিসেস অঞ্জু আগরওয়াল (ঋণগ্রহীতা)	নিম্নোক্ত সামান্য কমবেশি 257.33 বর্গমিটার জমির প্রটে	₹2,24,97,710.13	₹	7 জুন, 2021	15 জুন,
	মিসেস অলকা আগরওয়াল (সহ-ঋণগ্রহীতা)	নির্মিত বিশ্ভিংয়ের গ্রাউন্ড ফ্লোরের বেসমেন্টে প্রায় 1520	(13 এপ্রিল, 2021	1,41,00,000/-	বেলা 11.30টা	2021
	মিসেস কিরণ দেবী (সহ–ঋণগ্রহীতা)	বর্গফুট বিল্ট আপ এরিয়া অর্থাৎ, 1962 বর্গফুট সুপার	অনুযায়ী)	7	থেকে	দুপুর
		বিল্ট আপ এরিয়াযুক্ত অফিস স্পেসের অপরিহার্য সমগ্র		14.10.000/-	দুপুর 02.30টা	12.00টায়
	মেসার্স এসএফআইএস রিয়েলটরস প্রাঃ লিঃ (সহ–ঋণগ্রহীতা)	পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মিউনিসিপ্যাল প্রেমিসেস		11,10,000		শুরু
	মিঃ বিবেক কুমার আগরওয়াল (জামিনদার)	নং পি-21/1, সি আই টি স্কিম VIIM (ভি আই পি				
	LBCAL00003146243	বোড), থানা– মানিকতলা, কলকাতা–700054।				

খনলাইন নিলাম প্রক্রিয়াটি আমাদের নিলাম এজেপি মেসার্স নেক্সজেন সলিউশনস প্রাইভেট লিমিটেড (ইউআরএল লিঙ্ক: https://disposalhub.com)–এর ওরেবসাইটের মাধ্যমে আয়োজিত হবে। এতদ্ধারা সংশ্লিষ্ট বন্ধকদাতাগণ/বিজ্ঞপ্তি গ্রহীতাগণকে 14 জুন, 2021 তারিখ বিকেল 05.00টার মধ্যে সম্পূর্ণ বকেয়া অর্থাহ্ব সুদসমেত পরিশোধ করার জন্য শেষবারের মতো সুযোগ দেওয়া হল, অন্যথায় নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী

এই জামিনযক্ত পরিসম্পদ বিক্রি করা হবে। সম্ভাব্য ডাকদাতা(গণ)–কে অবশ্যই ওপরে উল্লিখিতমতো (ওপরের টেবলের কলাম নং 'E' স্রষ্টব্য) বায়না জমা বাবদ অর্থান্ধ (ইএমডি) ডিমান্ড ড্রাফট (ডিডি) রূপে আইসিআইসিআই ব্যান্ধ লিমিটেড, 228A, এ জে সি ৰোস রোড, ল্যান্ডমার্ক বিল্ডিং, ফোর্থ ফ্লোর, কলকাতা–700020 ঠিকানাস্থিত অফিসে জমা দিতে হবে এবং তার পরে সর্বশেষ 14 জুন দুপুর 03.00টের মধ্যে ওপরে লেখা ওয়েবসাইটে নিজেদের দরপ্রস্তাব ইএমডি জুমার প্রমাণ হিসেবে ব্যান্তের তরফে প্রাপ্তিমীকার করা ডিমা্ভ ড্রাফ্টের স্ক্যান করানো কপি সমেত দাখিল করতে হবে। অনুগ্রহ করে খেয়াল রাখকেন, সম্ভাব্য ডাকদাতা(গণ) ওয়েবসাইটের মাখমে দ্রপ্রভাব জমা দিতে না পারলে টেভার ডকুমেন্টের স্বাক্ষরিত কপি স্ক্যান করিয়ে সর্বশেষ 14 জুন, 2021 তারিখ বিকেল 05.00টার মধ্যে আইসিআইসিআই ব্যান্ধ লিমিটেড, 228A. এ জে সি বোস রোড. ল্যাভমার্ক বিল্ডিং. ফোর্থ ফ্লোর, কলকাতা-700020 ঠিকানায় জমা দিতে পারবেন। ইএমডি বাবদ অর্থান্ধ কোনও রাষ্ট্রায়ন্ত/তফসিলভুক্ত ব্যাঙ্গ থেকে 'ICICI Bank Limited'-এর অনুকূলে কটা ও Kolkata-তে প্রদেয় ডিমাভ ড্রাফ্ট/

দম্পত্তি পরিদর্শন, নিলামের শর্ত ও নিয়মাবলি অথবা টেভার জমা দেওয়া সংক্রান্ত প্রশ্নের পরিষ্কার উত্তর পেতে অনুগ্রহ করে আইসিআইসিআই ব্যাহ্ব লিমিটেড–এর সঙ্গে 9163343439 অথবা মেসার্স নেক্সজেন

সলিউশনস প্রাইভেট লিমিটেড–এর 8697008233/ 9810029926/ 09310029933/ 01244233933 নম্বরগুলিতে যোগাযোগ করবেন ঘনুগুহ করে খেয়াল রাখবেন, মার্কেটিং এজেপি (1) নেক্সজেন সলিউশনস প্রাঃ লিঃ, (2) অজিও অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট প্রাঃ লিঃ–কে এই সম্পত্তি বিক্রিতে সহায়তার কাজেও নিয়োজিত করা হয়েছে।

কানও কারণ না দেখিয়ে যে কোনও অথবা সমস্ত দরপ্রস্তাব বাতিল করার অধিকার অনুমোদিত আধিকারিকের থাকবে।

বিক্রির শর্ত ও নিয়মাবুলি বিশদে জানতে অনুগ্রহ করে এই ওয়েবসাইট দেখুন: www.icicibank.com/n4p4s। তারিখ : 30 এপ্রিল, 2021

অনুমোদিত আধিকারিক আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড independent adviser, if any can be The IDC noted that M/s. Patki & Soman, Chartered Accountants (FRN: 107830W) have duly

certified the prices computed as per Regulation 8 (2) of SEBI (SAST) Regulations, 2011. Considering all relevant factors, and based on the review of the PA, DPS, and LoF, the IDC is of the opinion that the price of INR 70.27/- per Equity Share, being the Offer Price of INR 70/- per Equity Share together with interest of INR 0.27/- per Equity Share, as offered by the Acquirer is (a) in accordance with the regulations prescribed under the SEBI (SAST) Regulations; and

(b) accordingly, the Open Offer is fair and reasonable. The shareholders of the Target Company are advised to independently evaluate the Open offer and take an informed decision about tendering the Equity Shares held by them in the

The members of the IDC would like to draw attention to the closing market price of the Equity 14. Any other matter(s) to be highlighted Shares on National Stock Exchange of India Limited ("NSE") and BSE Limited ("BSE") as on April 28, 2021, being INR 118.70 per Equity Share and INR 118.65 per Equity Share, respectively, which is higher than the Offer Price.

To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement is, in all material respect, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the information

required to be disclosed by the Target Company under the SEBI (SAST) Regulations. For and on behalf of Committee of Independent Directors of Magma Fincorp Limited

Vijayalakshmi R lyer

seen by the shareholder)

Details of Independent Advisors, if any.

Chairperson of Committee of Independent Directors DIN: 05242960

Date : 29 April, 2021

BOI AXA Mutual Fund

(Investment Manager: BOI AXA Investment Managers Private Limited)

Registered Office: B/204, Tower 1, Peninsula Corporate Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai 400013 CIN: U65900MH2007FTC173079



NOTICE

Disclosure with respect to Half Yearly Financial Results of Scheme(s) of BOI AXA Mutual Fund (The Fund):

Notice is hereby given to the Investors/Unit holders of all the Schemes(s) of BOI AXA Mutual Fund (the Fund) that in accordance with Regulation 59 of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 and SEBI circulars issued in this regard from time to time, the half yearly unaudited financial results of all the Scheme(s) of the fund for the half year ended March 31, 2021, have been hosted on the website of BOI AXA Investment Managers Private Limited at www.boiaxamf.in. Investors/Unit holders can access the aforesaid results using the following link: https://www.boiaxamf.in/regulatory-reports/financials

> For BOI AXA Investment Managers Private Limited (Investment Manager for BOI AXA Mutual Fund)

Place: Mumbai Date : April 29, 2021

Authorised Signatory

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

HSBC MUTUAL FUND NOTICE

Disclosure of Unaudited Half-Yearly Financial Results of Schemes of HSBC Mutual Fund

NOTICE is hereby given to the investors/unit holders of all the schemes of HSBC Mutual Fund ("the Fund") that in accordance with Regulation 59 of Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 read with SEBI Circular no. CIR/IMD/DF/21/2012 dated September 13, 2012, the Half Yearly unaudited financial results for all schemes of the Fund for the half year ended March 31, 2021, has been hosted on the Fund's website, www.assetmanagement.hsbc.co.in.

Unit holders are requested to take note of the same.

Applicants/Unit holders may contact our Customer Service Number - 1800 200 2434 / 1800 258 2434 or write to us at hsbcmf@camsonline.com, for any additional information/clarifications. Investors calling from abroad may call on +91 44 39923900 to connect to our customer care center. You may also visit any of the Investor Service centers (ISC) of the Fund, details of which are available on our website www.assetmanagement.hsbc.co.in

For & on behalf of HSBC Asset Management (India) Private Limited (Investment Manager to HSBC Mutual Fund)

Sd/-

Authorised Signatory Mumbai, April 29, 2021



Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

HSBC Asset Management (India) Private Limited, 16, V.N. Road, Fort, Mumbai-400001. e-mail: hsbcmf@camsonline.com, website: www.assetmanagement.hsbc.co.in Issued by HSBC Asset Management (India) Private Limited CIN-U74140MH2001PTC134220

MAGMA FINCORP LIMITED

Registered Office: Development House, 24, Park Street, Kolkata - 700016 Tel. No.: +91 (033) 444017350; Website: www.magma.co.in; CIN: L51504WB1978PLC031813

Recommendations of the Committee of Independent Directors ("IDC") of Magma Fincorp Limited ("Target Company") on the Open Offer (as defined below) made by Rising Sun Holdings Private Limited ("Acquirer") together with Mr Sanjay Chamria ("PAC 1") and Mr Mayank Poddar ("PAC 2"), in their capacity as the persons acting in concert with the Acquirer (collectively, "PACs") to the public shareholders of the Target Company, under Regulation 26(7) of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 ("SEBI (SAST) Regulations")

1.	Date	April 29, 2021		
2.	Name of the Target Company (TC)	MAGMA FINCORP LIMITED		
3.	Details of the Offer pertaining to TC	Open offer for the acquisition of up to 19,88,32,105 fully paid-up equity shares having a face value of INR 2/- each ("Equity Shares"), representing 26% of the Expanded Voting Share Capital (as defined in the Letter of Offer dated April 28, 2021) of the Target Company, from all public shareholders of Target Company, made by the Acquirer and the PACs ("Offer" of "Open offer"), at a price of INR 70.27/- per Equity Share, being the offer price of INR 70/- per Equity Share ("Offer Price") together with interest of INR 0.27/- per Equity Share, in terms of Regulation 3(1) and 4 of SEBI (SAST) Regulations. The Public Announcement dated February 10, 2021 (the "PA"), Detailed Public Statement published on February 17, 2021 (the "DPS") Letter of Offer dated April 28, 2021 (the "LoF") have been issued by Axis Capital Limited, the Manager to the Open Offer, on behalf of the Acquirer and the PACs.		
4.	Name(s) of the acquirer and PAC with the acquirer	Acquirer - Rising Sun Holdings Private Limited PAC 1 - Mr Sanjay Chamria PAC 2 - Mr Mayank Poddar		
5.	Name of the Manager to the offer	Axis Capital Limited 1st Floor, Axis House, C-2 Wadia International Centre, P. B. Marg, Worli, Mumbai - 400 (Maharashtra, India Tel: +91 22 4325 2183; Fax: +91 22 4325 3000 Email: magma.openoffer@axiscap.in Contact Person: Mr Ankit Bhatia SEBI Registration No.: INM000012029		
6.	Members of the Committee of Independent Directors (IDC) (Please indicate the chairperson of the Committee separately)			
7.	IDC Member's relationship with the TC (Director, Equity shares owned, any other contract / relationship), if any	All the IDC Members are Independent and Non-Executive Directors of the TC and none of the IDC members hold any equity shares in the TC.		
8.	Trading in the Equity shares/other securities of the TC by IDCMembers	None of the members of IDC have traded in any of the equity shares/other securities of the TC during the period of 12 months prior to the PA dated February 10, 2021 and till the date this recommendation.		
9.	IDC Member's relationship with the acquirer and PACs (Director, Equity shares owned, any other contract / relationship), if any.			
10.	Trading in the Equity shares/other securities of the Acquirer by IDC Members	None of the IDC members have traded in equity shares/other securities of the Acquirer durin the period of 12 months prior to the PA dated February 10, 2021 and till the date of this recommendation.		
11.	Recommendation on the Open offer, as to whether the offer is fair and reasonable			
12.	Summary of reasons for recommendation (IDC may also invite attention to any other place, e.g. company's website, where its detailed recommendations along with written advice of the independent adviser, if any can be seen by the shareholder)	mendation The IDC further noted that public shareholders whose Equity Shares are accepted in the Open Offer will be paid INR 70.27/- per Equity Share, being the Offer Price of INR 70/- per Equity Share. Share together with interest of INR 0.27/- per Equity Share. The recommendation of IDC, as mentioned in para 11 above, is based on the fact that the Offer Price, viz., INR 70/- is computed as per Regulation 8 (2) of the SEBI (SAST) Regulations. The IDC noted that M/s, Patki & Soman, Chartered Accountants (FRN: 107830W) have duly		
13.	Details of Independent Advisors, if any.	Nil		
14.	Any other matter(s) to be highlighted	The members of the IDC would like to draw attention to the closing market price of the Equit Shares on National Stock Exchange of India Limited ("NSE") and BSE Limited ("BSE") a on April 28, 2021, being INR 118.70 per Equity Share and INR 118.65 per Equity Share respectively, which is higher than the Offer Price.		

To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement is, in all material respect, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the information

respectively, which is higher than the Offer Price.

required to be disclosed by the Target Company under the SEBI (SAST) Regulations. For and on behalf of Committee of Independent Directors of Magma Fincorp Limited

Vijayalakshmi R Iyer

Chairperson of Committee of Independent Directors DIN: 05242960

Place : Mumbai Date : 29 April, 2021 epaper freepressiournal in

Mutual Funds Aditya Birla Sun Life Mutual Fund



Aditya Birla Sun Life AMC Limited(Investment Manager for Aditya Birla Sun Life Mutual Fund) Registered Office: One World Center, Tower 1, 17th Floor, Jupiter Mill Compound, 841, S.B. Marg, Elphinstone Road, Mumbai - 400 013. Tel.: 4356 8000. Fax: 4356 8110/8111. CIN: U65991MH1994PLC 080811

Record Date for Distribution

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the Trustees of Aditya Birla Sun Life Mutual Fund have approved Wednesday, May 05, 2021*, as the Record Date for declaration of distribution subject to availability of distributable surplus on the Record Date, in the following scheme:

Name of the Scheme	Plans/Options	Quantum of Distribution per unit # on face value of ₹ 10/- per unit	NAV as on April 28, 2021 (₹)
Aditya Birla Sun Life Fixed Term Plan - Series OW (A Close ended Income Scheme)	Regular Plan – Normal IDCW		9.6721
	Direct Plan – Normal IDCW	The entire distributable surplus at the time of	9.7454
	Regular Plan – Quarterly IDCW	maturity^ shall be distributed.	9.6072
	Direct Plan – Quarterly IDCW		9.6748

The NAV of the scheme, pursuant to pay out of distribution would fall to the extent of payout and statutory levy (if applicable).

#As reduced by the amount of applicable statutory levy. *or the immediately following Business Day if that day is a non-business day. ^Maturity of the said scheme is May 05, 2021.

All unitholders whose names appear in the Register of Unitholders / Beneficial owners under the IDCW options of the said scheme as at the close of business hours on the Record Date shall be eligible to receive the distribution so declared.

For Aditya Birla Sun Life AMC Limited (Investment Manager for Aditya Birla Sun Life Mutual Fund) Sd/-

Authorised Signatory

Place: Mumbai Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

Invesco Mutual Fund

Invesco Asset Management (India) Pvt. Ltd. (CIN: U67190MH2005PTC153471),

Date : April 29, 2021

2101-A, 21st Floor, A Wing, Marathon Futurex, N. M. Joshi Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013

Telephone: +91 22 6731 0000 Fax: +91 22 2301 9422 Email: mfservices@invesco.com www.invescomutualfund.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that Invesco Trustee Pvt. Ltd., (the Trustee to Invesco Mutual Fund) has approved the declaration of Income Distribution cum Capital Withdrawal ('IDCW') in the following schemes, the particulars of which are as under:

Name of the Scheme(s)	Plan(s) / Option(s)	Amount of IDCW (Rs. per unit)*	NAV as on April 28, 2021 (Rs. per unit)	Record Date [#]	
Invesco India Fixed Maturity Plan - Series 31 - Plan A, A Close Ended Debt Scheme	Regular Plan - IDCW Option		12.5704	May 5, 2021	
	Direct Plan - IDCW Option	Entire Distributable surplus at the time of Maturity	12.6006		
Invesco India Fixed Maturity Plan - Series 31 - Plan B, A Close Ended Debt Scheme	shall be distributed Regular Plan - IDCW Option	12.4868			

*IDCW payable to the unit holder(s) will be lower to the extent of tax deducted at source, at applicable rates.

*or immediately following Business Day if that day is not a Business Day.

Face Value per unit is Rs. 10/-.

Pursuant to payment of IDCW, the NAV of the IDCW Options of the schemes would fall to the extent of payout and statutory levy, if any.

Unit holders are informed that the Trustees has fixed Wednesday, May 5, 2021 as the 'Record Date' for the purpose of determining eligible Unit holders holding units of the aforesaid schemes who would be entitled to the maturity / redemption proceeds on the Maturity / Final Redemption Date of the schemes. The Maturity / Final Redemption Date of the aforesaid schemes is Wednesday, May 5, 2021 (or immediately following Business day if that day is not a Business Day).

The IDCW and Maturity / Redemption proceeds, as applicable, will be paid to those Unit holders holding units of the aforesaid Schemes in dematerialized form, whose names appear in the statement of beneficial owners maintained by the Depositories as at the close of business hours on the Record Date and to those Unit holders holding units in physical form whose names appear in the records of the Registrar, KFin Technologies Private Limited, as at the close of business hours on the Record date.

> For Invesco Asset Management (India) Pvt. Ltd. (Investment Manager for Invesco Mutual Fund)

> > **Saurabh Nanavati Chief Executive Officer**

Date: April 29, 2021

PRESSMAN

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.